



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247472  
CG-DL-E-20072023-247472

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]  
No. 500]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2023/आषाढ 28, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2023/ASHADHA 28, 1945

## राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

मिसिल सं. 3-41/2022/रा हो आ / हो. शि. बो./विनियम-डी आर एल-पार्ट.—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधिक्रमण में उप-धारा (1) और धारा 55 की उप- धारा (2) के खंड (यट), (यठ), (यड), (यढ), (यण) और (यत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

**1-संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-**(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी अर्हता को मान्यता) विनियम, 2023 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(अ) "अधिनियम" से तात्पर्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) है;

(आ) "अनुलग्नक" से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न एक अनुलग्नक है;

(इ) "बोर्ड" से तात्पर्य होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड है।

(ई) "पाठ्यक्रम" से तात्पर्य होम्योपैथी में अध्ययन पाठ्यक्रम है अर्थात: -

(i) होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक (बी. एच. एम. एस.) होम्योपैथी में, बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध तथा अनुरक्षित एक स्नातक अर्हता;

(ii) एम डी (होम्योपैथी) अथवा होम्योपैथी स्नात्कोत्तर, बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध तथा अनुरक्षित एक होम्योपैथी स्नात्कोत्तर अर्हता;

(उ) " डिजिटल कोड" से तात्पर्य मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञानी अर्हता;

(Å) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन विनियमों में सलग्न एक प्रपत्र है;

(ए) "आयुर्विज्ञानी अर्हता" से तात्पर्य होम्योपैथी पद्धति में किसी आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत तथा बोर्ड द्वारा संस्तुत डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा इस प्रकार की अन्य अर्हता, जैसा मामला हो,

(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जोकि यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो कि क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित किए गए हैं।

### 3. भारत में विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता-

(1) बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता शामिल करने हेतु सूची निम्नानुसार बनाएगा, अर्थात:-

(i) अनुलग्नक- I में दिए गये मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता की सूची को आयोग के वेब पोर्टल में प्रदर्शित करेगा,

(ii) अनुलग्नक-VII के अनुसार मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता को सूचीबद्ध करते समय इस प्रकार की मान्यता की वैधता की अवधि को उल्लेखित किया जाएगा,

(iii) अनुलग्नक-VII में उल्लेखित प्रपत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता का विवरण बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों की होम्योपैथी परिषदों को सूचित करेगा,

(iv) आयुर्विज्ञान अर्हता को सूचीबद्ध तथा शामिल करने के उद्देश्य हेतु, एक डिजिटल कोड बनाना पड़ेगा जोकि राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का उपनाम, विश्वविद्यालय कोड, आयुर्विज्ञान संस्थान कोड के पश्चात अर्हता का उपनाम कोड तथा संशोधन यदि कोई हो, जिसमें -

(अ) राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र को राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के संक्षिप्त नाम से दर्शाया जाएगा, जैसा कि मामला हो, जिसमें कि विश्वविद्यालय स्थित हो जैसा कि अनुलग्नक- II में उल्लेखित हों।

(आ) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के संक्षिप्त नाम से दर्शाया जाएगा जिससे कि आयुर्विज्ञान संस्थान संबद्ध हो जैसा कि अनुलग्नक- III में उल्लेखित हो।

(इ) आयुर्विज्ञान संस्थान को आयोग द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थान के उपनाम से दर्शाया जाएगा. जैसा कि अनुलग्नक - IV में दर्शाया गया है।

(ई) आयुर्विज्ञानी अर्हता कोड को अर्हता के संक्षिप्त नाम से जाना जाएगा जैसाकि अनुलग्नक- V में दर्शाया गया है।

- (2) बोर्ड होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की द्वितीय अनुसूची में शामिल सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक- VI में उल्लेखित है तथा सूची को आयोग के पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा।
- (3) बोर्ड सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक- VII में उल्लेखित है तथा ये आयुर्विज्ञान अर्हताएँ अधिनियम के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएँ होंगी।
- (4) सभी विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात आगे निरंतर अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्राप्त सूची में नियत 'प्रपत्र- अ' अथवा ' प्रपत्र- ब' जैसा मामला हो, विनियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के आधार पर होगा।
- (5) आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान करने के पूर्व यदि आवश्यक हो बोर्ड, विश्वविद्यालयों अथवा आयुर्विज्ञान संस्थानों के शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा परीक्षा संचालन की जाँच हेतु निरीक्षण अथवा निरीक्षण हेतु निरीक्षकों को नियुक्त करेगा।
- (4) आवेदन की जाँच -(1) होम्योपैथी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु बोर्ड निम्न पात्रता की जाँच करेगा-
- (अ) (i) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय जो कि भारत में स्थित हो,  
(ii) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय, आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होगा,  
(iii) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता की नामपद्धति, आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा द्वारा होम्योपैथी हेतु मान्यता प्रदत्त होगा,  
(iv) आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता के पाठ्यक्रम की अवधि जैसा कि आयोग द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित होगा,  
(v) होम्योपैथी हेतु अपनाया गया पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण अथवा पाठ्यचर्या, जैसा कि आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्रदान किया गया हो, होगा,  
(vi) पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया जैसा कि आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो, होगा।
- (आ) नाम पद्धति तथा होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता की अनुमोदित अवधि का विवरण अनुलग्नक-1 के अनुसार उपलब्ध कराएगा।
- (2) विश्वविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि पात्रता मानदण्ड पूर्ण करता हो जैसा कि उप विनियम (1) ऑफ लाइन अथवा आनलाइन प्रारूप में अध्यक्ष, बोर्ड को प्रेषित करेंगे -

- (i) होम्योपैथी स्नातक पाठ्यक्रम अथवा कोई अन्य आयुर्विज्ञान अर्हता के लिए जैसा कि बोर्ड द्वारा संस्तुत किया गया हो, आवेदन नियत, प्रपत्र में जैसा कि 'प्रपत्र-अ' में उल्लेखित है, स्नातक की गृह शिक्षता पूर्ण होने के पैंतालीस दिन के पश्चात जमा करेंगे,
- (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नियत प्रारूप में जैसा कि 'प्रपत्र-ब' में उल्लेखित है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पैंतालीस दिन के पश्चात जमा करेंगे,

परन्तु यह कि नये स्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान, होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरंभ करेगा, जब अभ्यार्थी गृह शिक्षता में प्रवेश लेंगे।

परन्तु आगे यह कि यदि आयुर्विज्ञान संस्थान होम्योपैथी में नया पाठ्यक्रम आरंभ करेगा अथवा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम होम्योपैथी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रक्रिया आरंभ करेगा, जब अभ्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश लेंगे।

- (ब) बोर्ड प्राप्त आवेदनों की उप विनियम (1) उल्लेखित मानदण्डों के अनुसार जाँच कर कार्रवाई करेगा,
- (स) बोर्ड द्वारा आवेदन पर कार्रवाई करने के पश्चात, आवेदन प्राप्ति के छः माह के अन्दर आवेदक को एक मान्यता प्रदान करने अथवा प्रदान करने से मना करने का आदेश प्रेषित करेंगे,
- (द) यदि बोर्ड को कोई त्रुटि प्रतीत होती है, आवेदक को इस प्रकार की त्रुटि दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदक इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को कारण स्पष्ट करते हुए सूचित किया जाएगा।

#### 5. आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु बोर्ड से अपील: -

- (1) आवेदक जिसके आवेदन को विनियम 4 के उप विनियम 2 के अंतर्गत अमान्य कर दिया गया हो, तो वह आयोग के आदेश के विरुद्ध इस प्रकार की सूचना की तिथि के साठ दिनों की अवधि के अंदर अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को संबोधित आवेदन में अपील करेगा,
- (2) आवेदक विनिर्दिष्ट प्रपत्र- स में पूर्ण रूप में भर कर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ऑफ लाइन अथवा ऑन लाइन अपील कर सकता है,
- (3) आयोग इस प्रकार के अपीलों की जाँच पात्रता के मानदण्डों के अनुसार जैसा कि विनियम 4 के उप विनियम (1) के अंतर्गत दो माह के अंदर जाँच करेंगे तथा यदि आयोग निर्णय ले कि आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान किया जाए, आयोग होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्रदान करने हेतु निदेशित करेगा तथा विनियम 3 के उप विनियम (1) के अनुसार इस प्रकार की अर्हता को शामिल करेगा,
- (4) यदि बोर्ड को कोई त्रुटि प्रतीत होती है, आवेदक को इस प्रकार की त्रुटि दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदक इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को कारण स्पष्ट करते हुए सूचित किया जाएगा।

- (5) यदि आयोग आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान करने से मना करता है अथवा आयोग निर्धारित अवधि दो माह में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, तो आवेदक द्वितीय अपील केन्द्रीय सरकार को सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय को संबोधित करते हुए आदेश उप विनियम (4) के अंतर्गत सूचित करने की तिथि से विनिर्दिष्ट अवधि तीस दिन के अन्दर करेगा अथवा उक्त दो माह अवधि बीतने के पश्चात,
- (6) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की अपील को विनियम-4 उप विनियम (1) में उल्लेखित पात्रता मानदण्डों के आधार पर जाँच करेगी तथा यदि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले कि ऐसे आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता प्रदान किया जाए, तो केन्द्रीय सरकार, आयोग को निदेशित करेगा कि वह मान्यता प्रदान करे तथा विनियम-3 उप विनियम (1) के अनुसार शामिल करे,
- (7) यदि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले कि इस आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता न दी जाए, तो केन्द्रीय सरकार ऐसी अपील को अमान्य कर रद्द करेगी,

परन्तु यह कि ऐसी अपील अमान्य करने से पूर्व यदि कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो आवेदक को इस प्रकार की त्रुटि दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदक इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने में असमर्थ रहता है तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा तथा आवेदक को कारण स्पष्ट करते हुए सूचित किया जाएगा ।

**6. भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता को मान्यता:-** (1) बोर्ड होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की तृतीय अनुसूची में शामिल सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक-IX में उल्लेखित है तथा सूची को आयोग के पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा ।

(2) बोर्ड सभी आयुर्विज्ञान अर्हताओं को सूचीबद्ध तथा रखरखाव करेंगे जैसा कि अनुलग्नक-VIII में उल्लेखित है तथा ये आयुर्विज्ञान अर्हताएँ अधिनियम के उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताएँ होंगी ।

डा. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

[विज्ञापन-III/4/असा./287/2023-24]

### अनुलग्नक - I

(विनियम-3, उप विनियम (1) तथा विनियम - 4 उप विनियम (1) देखें )

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम) होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया (बी एच एम एस) स्नातक विनियम, 2022 तथा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विनियम (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989 के अनुसार स्नातक डिग्री तथा स्नातकोत्तर डिग्री हेतु नामपद्धति निम्नानुसार होगी :-

क्रम सं.	पाठ्यक्रम की नामपद्धति	अवधि	उप नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बी०एच० एम० एस० (होम्योपैथी औषध एवं शल्य क्रिया स्नातक )	5 ½ वर्ष	बी०एच०एम०एस०
2.	एम०डी०(होम) (होम्योपैथी स्नातकोत्तर )	3 वर्ष	एम०डी०(होम)
3.	होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में शामिल अन्य सभी ऐसी डिग्री अथवा डिप्लोमा उनके उप नाम सहित	-----	-----

XXXXXXXX

## अनुलग्नक -II

## राज्य कोड

(विनियम -3 उप विनियम-1 देखें )

क्रम सं.	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र	उप नाम	क्रम सं.	राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र	उप नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आंध्र प्रदेश	आ प्र	20	उड़ीसा	ओई
2	अरुणाचल प्रदेश	अन प्र	21	पंजाब	पंज
3	असम	अस	22	राजस्थान	राज
4	बिहार	बिहा	23	सिक्किम	सिक
5	छत्तीसगढ़	छग	24	तमिलनाडु	तमिल
6	गोवा	गो	25	त्रिपुरा	त्रिप
7	गुजरात	गुज	26	उत्तराखंड	उत्त
8	हरियाणा	हरि	27	उत्तर प्रदेश	उप्र
9	हिमाचल प्रदेश,	हिम	28	पश्चिम बंगाल	प स
10	तेलंगाना	तेलंग	29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अंड
11	झारखंड	झाख	30	चण्डीगढ़	सीडी
12	कर्नाटक	कर्ना	31	दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव	दाद
13	केरल	केर	32	दिल्ली	दिल
14	मध्य प्रदेश	मद	33	लक्षद्वीप	लक्ष
15	महाराष्ट्र	महा	34	पुडुचेरी	पी वाई
16	मणिपुर	मणि	35	लद्दाख	लाल
17	मेघालय	मेघ	36	जम्मू एवं कश्मीर	जेके
18	मिज़ोरम	मिजो			
19	नागालैंड	नागा			

## अनुलग्नक -III

## (विश्वविद्यालय कोड)

(विनियम -3 उप विनियम-1 देखें )

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय पहचान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	एन टी आर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा	(आ प्र-०1)
2.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोने हिल्स दोईमुख, ईटानगर	(अन प्र 01)
3.	असम	श्रीमंता संकरादेवा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	(अस -01)
4.	बिहार	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	(बिहा-01)

5.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	(छग-01)
6.	छत्तीसगढ़	पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हैल्थ साइंस तथा आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर, छग	(छग-02)
7	चंडीगढ़	गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, होशियारपुर,	(सीडी-01)
8	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	(दिल-01)
9	दिल्ली	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	(दिल-02)
10	गोवा	गोवा विश्वविद्यालय तेलीगाँव प्लेट्यू, गोवा	(गो-01)
11	गुजरात	स्वर्णिम स्टार्टप एवं इनोवेशन, विश्वविद्यालय	(गुज-01)
12	गुजरात	हेमचंद्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन, गुजरात	(गुज-02)
13	गुजरात	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	(गुज-03)
14	गुजरात	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वी वी नगर	(गुज-04)
15	गुजरात	पारूल विश्वविद्यालय, वडोदरा (संबद्ध महाविद्यालय)	(गुज-05)
16	गुजरात	महाराजा कृष्ण कुमार सिंघजी भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	(गुज-06)
17	गुजरात	वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	(गुज-07)
18	गुजरात	संकलचंद पटेल विश्वविद्यालय	(गुज-08)
19	गुजरात	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	(गुज-09)
20	गुजरात	श्री गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय, गोदरा	(गुज-10)
21	गुजरात	भक्त कवि नरसिंघ मेहता विश्वविद्यालय	(गुज-11)
22	गुजरात	पी पी सावनी विश्वविद्यालय	(गुज-12)
23	गुजरात	सुमनदीप विद्यापीठ विश्वविद्यालय	(गुज-13)
24	हरियाणा	श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा	(हरि-01)
25	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	(हिम -01)
26	झारखण्ड	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	(झाख -01)
27	झारखण्ड	वाई बी एन विश्वविद्यालय	(झाख -02)
28	झारखण्ड	निलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय (2010-11) विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	(झाख -03)
29	कर्नाटक	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलूरु	(कर्ना-01)
30	कर्नाटक	के एल ई विश्वविद्यालय, जे एम एन सी कैंपस, नेहरू नगर, बेलगावी ((सम ) संबद्ध महाविद्यालय	(कर्ना-02)
31	कर्नाटक	येनेपोया विश्वविद्यालय, मैंगलूरु (संबद्ध महाविद्यालय)	(कर्ना-03)
32	केरल	केरल स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान विश्वविद्यालय, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय पो०ओ० त्रिसूर- 680596	(केल-01)
33	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान, विश्वविद्यालय, जबलपुर	(मध-01)
34	मध्य प्रदेश	सर्वपल्ली राधा कृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल	(मध-02)
35	मध्य प्रदेश	डॉ० ए पी जे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय , इंदौर	(मध-03)
36	मध्य प्रदेश	श्री सत्य साईं तकनीकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	(मध-04)
37	मध्य प्रदेश	आर के डी फ विश्वविद्यालय, भोपाल	(मध-05)
38	मध्य प्रदेश	डॉ० हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर	(मध-06)
39	मध्य प्रदेश	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट	(मध-07)

40	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र स्वास्थ्य-विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक	(महा-01)
41	महाराष्ट्र	भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे	(महा-02)
42	महाराष्ट्र	डॉ० डी वाई पाटिल विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) संत तुकाराम नगर पिंपरी, पुणे -411018	(महा-03)
43	मेघालय	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनइएचयू), शिलॉंग	(मेघ-01)
44	उडीसा	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	(ओई -01)
45	उडीसा	बहरामपुर विश्वविद्यालय	(ओई -02)
46	उडीसा	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	(ओई -03)
47	पंजाब	गुरू रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पंजाब	(सीडी-01)
48	राजस्थान	डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर	(राज-01)
49	राजस्थान	तौतिया विश्वविद्यालय	(राज-02)
50	राजस्थान	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय )	(राज-03)
51	राजस्थान	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (संबद्ध संकाय)	(राज-04)
52	राजस्थान	माधव विश्वविद्यालय (संबद्ध संकाय)	(राज-05)
53	राजस्थान	होम्योपैथी विश्वविद्यालय का संबद्ध विश्वविद्यालय, जयपुर	(राज-06)
54	तमिलनाडु	डॉ० एम जी आर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	(तमिल-01)
55	तमिलनाडु	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, डीम्ड विश्वविद्यालय, सेलम	(तमिल-02)
56	तेलंगाना	कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, निजामाबाद, वारांगल, तेलंगाना	(तेलंग-01)
57	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	(उत्त -01)
58	उत्तराखण्ड	कुमाऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल	(उत्त -02)
59	उत्तर प्रदेश	डॉ० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	(उ प्र-01)
60	उत्तर प्रदेश	महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	(उ प्र-02)
61	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकता	(प स -01)

#### अनुलग्नक - IV

(आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कोड)

(विनियम 3 का उप विनियम 1 देखें)

क्रम सं.	कॉलेज का नाम	राज्य	आयुर्विज्ञान संस्थान पहचान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए एस आर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वाई जंक्शन, प्रातिपाडु तादेपाल्लगुदेम, पश्चिम	आंध्र प्रदेश	(01-01)
2	डॉ. अल्लू रामलिंगैया राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 26-1-11, वाई-जंक्शन, राजा महेंद्रावरम	आंध्र प्रदेश	(01-02)
3	डॉ. गुरुराजू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गुडिवडा, कृष्णा जिला - 521 301	आंध्र प्रदेश	(01-03)



4	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रामा राजू पल्ली, रविंद्रा नगर पोस्ट, कडपा, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश - 516003	आंध्र प्रदेश	(01-04)
5	के के सी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 1-52, केकेसी नगर, परमेश्वर मंगलम चित्रूर- 517584	आंध्र प्रदेश	(01-05)
6	महाराजा होम्योपैथी विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, डी.सं. 31-15, नेल्लिमरला, निकट एमडीओ कार्यालय, नेल्लिमरला, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश-535217	आंध्र प्रदेश	(01-06)
7	श्री आदि शिव सतगुरु अली साहेब शिवरयुला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, थिम्मापुरम, एनएच-63, अंजिनेयास्वामी मंदिर के निकट, गुंटाकल, अनंतपुर - 515801	आंध्र प्रदेश	(01-07)
8	पूर्वोत्तर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, विवेक विहार, इटानगर, पापुमपारे- 791113	अरुणाचल प्रदेश	(02-01)
9	असम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुल्ल सिंह रोड, लखिनगर पीओ हैबरगांव, जिला नगांव-782 002.	असम	(03-01)
10	डॉ. जे.के. सैकिया राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिमखाना क्लब रोड के निकट, जिला जोरहाट-785008.	असम	(03-02)
11	स्वाहिद जाधव नाथ राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव बाघरबारी, डाकखाना खानापारा, गुवाहाटी- 781037	असम	(03-03)
12	बी.एन.एम. होम्योपैथिक मेडिकल अस्पताल, सहरसा-852201	बिहार	(04-01)
13	के एन एच होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मायागंज, भागलपुर-812001	बिहार	(04-02)
14	मगध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बिहार शरीफ, स्टेशन रोड, नालंदा-803101.	बिहार	(04-03)
15	जी.डी. मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पूर्वी राम कृष्णा नगर, पीओ जगनपुरा, पटना - 800 027	बिहार	(04-04)
16	डॉ. रामबालक सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमवा, बोध गया-824231, गया	बिहार	(04-05)
17	डॉ. यदुवीर सिंह सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लहरियासराय, दरभंगा-846002.	बिहार	(04-06)
18	मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्रो. विष्णुकुमार मार्ग, श्रीनगर, सिवान-841226	बिहार	(04-07)
19	आर.डी. केडिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डाकखाना हनुमान सुगर मिल्स, बरियापुर, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण-841226	बिहार	(04-08)
20	द टैम्पल ऑफ हनेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डाकखाने के सामने, भगत सिंह चौक, मुंगेर - 811201.	बिहार	(04-09)
21	आर.बी.टी.एस. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, राम दयालू नगर, पीओ रमना, मुजफ्फरपुर - 842 002.	बिहार	(04-10)
22	डॉ. हालिम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एक्किमघाट, डाकखाना लहरिया सराय-846001.	बिहार	(04-11)
23	केंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गांव एवं डाकखाना खिलवत, हाजिपुर, वैशाली- 844101.	बिहार	(04-12)
24	महर्षि मेन्ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीवछ नगर, कटिहार-854105.	बिहार	(04-13)

25	मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रघु नाथ पांडेय नगर, एमआईसी बेला, मुजफ्फरपुर-842005.	बिहार	(04-14)
26	पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राम कृष्णा नगर (सोरंगपुर), पटना-800027.	बिहार	(04-15)
27	छदमीलाल चौकसी (सी.एल.) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लाल खदान मस्तूरी रोड, बिलासपुर - 495001.	छत्तीसगढ़	(05-01)
28	महाराणा प्रताप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ऋषभ एनक्लेव के निकट, इमलीडीह, नया राजेंद्र नगर, रायपुर-001	छत्तीसगढ़	(05-02)
29	रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राम कुण्ड, चौबे कालोनी, रायपुर-492001	छत्तीसगढ़	(05-03)
30	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एम-671, सेक्टर-26, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़- 160 019.	चंडीगढ़	(06-01)
31	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बी-ब्लॉक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024.	दिल्ली	(07-01)
32	डॉ. वी.आर. सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, निकट नानकपुरा गुरुद्वारा (रिंग रोड), मोती बाग-II, नई दिल्ली-110021	दिल्ली	(07-02)
33	कामाक्षी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हिल टॉप, शिरोडा, गोवा - 403103.	गोवा	(08-01)
34	अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, ऐट भोया राठौड, इफको अदालज-सरथा रोड के सामने, गांधीनगर-382420.	गुजरात	(09-01)
35	लक्ष्मीबेन होम्योपैथी संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, लालजी पार्क, उझा-मेहसाणा राजमार्ग, गांव एवं डाकखाना भांदू-384120, ता-विसानगर, जिला मेहसाणा (उत्तर गुजरात)	गुजरात	(09-02)
36	श्री लिम्बडी विकास ट्रस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, लिम्बडी-धानुका राज्य राजमार्ग, जिला सुरेंद्र नगर लिम्बडी, गुजरात - 363421	गुजरात	(09-03)
37	आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, सरदार बाग के निकट, भालेज रोड, आनंद - 001, जिला खेडा	गुजरात	(09-04)
38	वडोदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सोनार कुई के निकट, जेविर तकनीकी संस्थान के सामने, सेवासी-सिंधरोट रोड, सेवासी, वडोदरा - 391101	गुजरात	(09-05)
39	डॉ. वी.एच. दवे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.आई. पटेल (इपकोवाला) होम्योपैथिक अस्पताल, हाहनेमन हाउस, अमूल डेयरी रोड, आनंद - 001, जिला खेडा	गुजरात	(09-06)
40	जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, माफर्त पारुल एजूकेशनल कांप्लेक्स, पोस्ट-लिम्बडा, ताल-वाघोडिया, जिला - वडोदरा -391760.	गुजरात	(09-07)
41	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, देथाली, तहसील सिधपुर, जिला पाटन (उत्तरी गुजरात)- 384151	गुजरात	(09-08)
42	श्री एच.एन. शुक्ला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्री एच.एन. शुक्ला कॉलेज परिसर, लालपरी लेक के निकट, मार्किटिंग यार्ड के पीछे, अमरगढ़-भिछरी, राजकोट (श्री महात्मा	गुजरात	(09-09)

	गांधी एजुकेशन ट्रस्ट, राजकोट, गुजरात द्वारा)		
43	स्वामी विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, खेलकूद परिसर के निकट, सिदसर रोड, भावनगर-364 060.	गुजरात	(09-10)
44	विद्यादीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र (गुजरात035), अनिता (किम), सूरत, गुजरात	गुजरात	(09-11)
45	अर्देक्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पो ओ नबी मेतरल जिला- सबरकांटा	गुजरात	(09-12)
46	समर्पण चेरिटेबल एंड एजुकेशन मेडिकल एवं रिसर्च ट्रस्ट, श्री बचूभाई अलाभाई डांगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आईओसी डिपो के सामने, जामनगर रोड, राजकोट-360007.	गुजरात	(09-13)
47	अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव एवं डाकखाना घूमा-भोपाल रोड, घूमा, अहमदाबाद-380058	गुजरात	(09-14)
48	राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जयनाथ पेट्रोल पम्प, गोंडल रोड, राजकोट-360 002.	गुजरात	(09-15)
49	आर्य-वीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ऐट कुवाडवा, कुवाडवा-सरदार रोड, राजकोट-अहमदाबाद एनएच, जिला राजकोट-360 030	गुजरात	(09-16)
50	अग्रवाल एजुकेशन फाउंडेशन, एस.एस. अग्रवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, देवीना पार्क सोसायटी के निकट, विरांजलि मार्ग, गनदेवी रोड, नवसारी-396445	गुजरात	(09-17)
51	अन्नया होम्योपैथिक कॉलेज, केआईआरसी परिसर, अहमदाबाद-मेहसाणा राजमार्ग, कलोल, जिला गांधीनगर- 382721	गुजरात	(09-18)
52	भार्गव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विद्याग्राम, गांव एवं डाकखाना दहेमी, टा-बोरसद, जिला आनंद- 388560.	गुजरात	(09-19)
53	सी.डी. पच्छीगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आनंद मंगल सोसायटी के निकट, भातार रोड, मंजुरा, सूरत-395001.	गुजरात	(09-20)
54	गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव व डाकखाना सवली-391770, जिला वड़ोदरा	गुजरात	(09-21)
55	ज्ञान ज्योत एजुकेशन ट्रस्ट, बी.जी. गैरैया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कालिपत, निकट ट्राम्बा, भावनगर राजमार्ग, राजकोट-360 020.	गुजरात	(09-22)
56	जय जालाराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव एवं डाकखाना मोरवा (रीना), ताकुला शहरिया, जिला पंचमहल-389001.	गुजरात	(09-23)
57	कामदार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, हरिपर पाल सर्वेक्षण सं.12, एनआरआई बंगलों के पीछे, दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने, कालावाड रोड, राजकोट-360007.	गुजरात	(09-24)
58	मर्चेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मर्चेट एजुकेशन परिसर, मेहसाणा-विसनगर राजमार्ग, गांव एवं डाकखाना गाधा, बसना, मेहसाणा--384 315.	गुजरात	(09-25)
59	पी पी सावनी होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, रा रा-8, जी ई टी सी ओ नियर बिल्टेक कंपनी, ग्राम धमदौड, कोसांबा, जिला- सूरत-394125	गुजरात	(09-26)
60	पारुल होम्योपैथिक एवं अनुसंधान संस्थान, डाकखाना लिम्डा, तहसील वाघोडिया, जिला वड़ोदरा-391760.	गुजरात	(09-27)

61	पायोनीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पायोनीर मेडिकल परिसर, अमेरिकन स्कूल बड़ोदा के निकट, गांव एवं डाकखाना सयाजीपुरा, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 के निकट, अजवा क्रॉस रोड, वड़ोदरा	गुजरात	(09-28)
62	श्री छोटालाल नागिनदास कोठारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, वन चेतना के निकट, ककरापर बाई पास, तडकुवा व्यारा, जिला सूरत-394 650.	गुजरात	(09-29)
63	श्री महालक्ष्मी महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, (श्री श्यामलाजी आरोग्य सेवा ट्रस्ट), गुजरात ट्रैक्टर्स की साइड, विश्वमित्री पुल के निकट, मुंजनालुडा लालबाग रोड, वड़ोदरा-390011.	गुजरात	(09-30)
64	श्री स्वमीनारायण होम्योपैथिक कॉलेज, श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल ट्रस्ट, अहमदाबाद-मेहसाणा राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट, गांव एवं डाकखाना सैज, कलोल, जिला गांधीनगर-382721	गुजरात	(09-31)
65	श्री शामलाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, गोधरा, मून लाइट सिनेमा के निकट, गोधरा-389 001.	गुजरात	(09-32)
66	श्री विवेक भारती ट्रस्ट, नोबल होम्योपैथिक कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, जूनागढ़, "पार्थ वाटिका", ब्हेसन रोड, वाया वाडाल, बामनगाम- 362310, तहसील एवं जिला जूनागढ़	गुजरात	(09-33)
67	वालन होम्योपैथी मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, वालन-पालेज रोड एट पी ओ वालन, तालु कर्जन जिला- वड़ोदरा -392310	गुजरात	(09-34)
68	श्री सरदार पटेल महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मोरबी रोड, हडाला, राजकोट-360003	गुजरात	(09-35)
69	सुमनदीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पोस्ट-पिपारिया, तालुका-वाघोडिया, जिला वड़ोदरा, गुजरात - 391760	गुजरात	(09-36)
70	श्री एन.एम. पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पोस्ट-सलावडा, तह. उनावदा, जिला महिसागर, गुजरात - 388270	गुजरात	(09-37)
71	नूतन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नूतन सर्वविद्यालय केलारानी मण्डल, संकलचंद पटेल विद्याधाम अंबाजी गांधी नगर, स्टार हाईवे विस नगर-384315	गुजरात	(09-38)
72	श्रीमती ए.जे. सावला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुष्पांजलि बिल्डिंग, निकट जिला सेशन पंचायत, निकट करवे स्कूल, विस नगर रोड., मेहसाणा, गुजरात - 384001	गुजरात	(09-39)
73	श्रीमती मालिनी किशोर सांघवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एट मियाँ गाँव तालुका कर्जन, जिला वड़ोदरा-391240	गुजरात	(09-40)
74	श्रीमती टी.वी. मेहता चारिटेबल फाउंडेशन, ललिताबेन रमणीकलाल शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गरदी विद्यापीठ परिसर, शिव शक्ति होटल के सामने, कालावाड राजमार्ग, ग्राम आनंदपुर-361162, राजकोट.	गुजरात	(09-41)
75	श्रीमती वसंताबेन एन. व्यास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एसआर सं. 873/2, जेसिंगपरा, अमरेली-365 601.	गुजरात	(09-42)
76	गांधीनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुबारकपुर (पर्ल एजूकेशन चारिटेबल ट्रस्ट), अहमदाबाद- 392721	गुजरात	(09-43)

77	जे.आर. किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पुराना सुंदरपुर रोड, जींद बाई पास, रोहतक - 124 001.	हरियाणा	(10-01)
78	सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बैरोग बाई-पास (शूलिनी फिलिंग स्टेशन के नजदीक), कुमाराहट्टी - 173229,	हिमाचल प्रदेश	(11-01)
79	आरोग्यम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गांव - झलुवा, डाकखाना कल्याणपुर, गरहवा-822114	झारखंड	(12-01)
80	माँ कलावती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, राजौलातु, नामकुम, रांची - 834010	झारखंड	(12-02)
81	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पारसपानी गोड्डा-814147	झारखंड	(12-03)
82	देवकी महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान अस्पताल, फराथिया, गरहवा -822114,	झारखंड	(12-04)
83	सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जामताड़ा, झारखण्ड-292999	झारखण्ड	(12-05)
84	दॉ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और मिहिजम अस्पताल, पीओ मिहिजम, जिला जमतारा, झारखंड - 815 354.	झारखण्ड	(12-06)
85	भारतेश होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बी.सी.-188, पुराना पी.बी. रोड., धारवार, बेलगाम - 590016	कर्नाटक	(13-01)
86	ए.जी.एम. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर-हुबली, कर्नाटक - 581207.	कर्नाटक	(13-02)
87	केएलई यूनिवर्सिटी का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, येल्लूर रोड, बेलगावी-59005	कर्नाटक	(13-03)
88	शेटी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शेटी एजूकेशन हब, शाहबाद रोड, कालाबुर्गी-585105,	कर्नाटक	(13-04)
89	येनोपोया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, आर.एस. सं.29, 30, 31, नरिंगाना गांव, डाकखाना डेरालाकट्टे (मंगलौर), तहसील बंटवाल, जिला दिक्षिण, कर्नाटक-575018.	कर्नाटक	(13-05)
90	दॉ होली फैमिली एडुकेशन सोशयटी, रोजी रॉयल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गांव-माल्लापुरा, नेलामंगला, बंगलौर-562162.	कर्नाटक	(13-06)
91	एस.बी. शिरकोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अनंत विद्या नगर, पी.बी. सं. 16, सनकेश्वर - 591 313, जिला बेलगाम	कर्नाटक	(13-07)
92	ए.एम. शेख होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नेहरू नगर, बेलगाम - 590 010	कर्नाटक	(13-08)
93	डॉ. बी.डी. जत्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डी.सी. कम्पाउंड, धरवाड़ - 580001.	कर्नाटक	(13-09)
94	डॉ. मालकारेड्डी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, महादेवप्पा रामपुरे मार्ग, सेडम रोड, कलबुर्गी-585105	कर्नाटक	(13-10)
95	फादर मूलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, यूनिवर्सिटी रोड, डेरालाकट्टे, मंगलौर - 574160.	कर्नाटक	(13-11)
96	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉ. सिद्धैय्या पुराणिक रोड (राजकीय मेडिकल स्टोर्स के निकट), बसावेश्वर-नगर, बंगलौर - 560 079.	कर्नाटक	(13-12)
97	अल्वास होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शोभावना परिसर, एनएच-13, मिजार मूडविदरी- -574225,	कर्नाटक	(13-13)

98	अनुराधा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, एसवाई, सं. 78/5 (पुराना एसवाई सं. 78/1), श्रीगंदराकावल	कर्नाटक	(13-14)
99	भगवान बुद्ध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, 'श्रीनिधि कम्प्लेक्स', मल्लाथल्ली, बंगलौर-056	कर्नाटक	(13-15)
100	बीवीवी संघा बीवीवीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बीवीवीएस पुराना परिसर, बेलगावी-रायचुर, बगलकोट, कर्नाटक-587101	कर्नाटक	(13-16)
101	एस.सी.एस.ई. सोसायटी का बसव ज्योति होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आर.एस. सं.43/2ए, प्लॉट सं.8, इंडाल रोड, आजम नगर, बेलगाम- 590010.	कर्नाटक	(13-17)
102	श्री बसावेश्वर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, श्री सत्य साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, प्लॉट सं.19, 'सी', औद्योगिक क्षेत्र, सत्तूर, धारवाड-580009,	कर्नाटक	(13-18)
103	एसवीई ट्रस्ट का वीरभद्रेश्वर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, साई बाबा मंदिर के निकट, हूमनाबाद (डाक एवं तालुका), जिला बिदर-585330	कर्नाटक	(13-19)
104	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इमामूलतम, डाकखाना मनाकौड, तिरुवनंतपुरम-695009.	केरल	(14-01)
105	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, करापराम्बा, जिला कोज्झीकोड -673 010.	केरल	(14-02)
106	मानसिक स्वास्थ्य में नेशनल होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान (एन एच आर आई एम एच), एट सी आर आई (एच) सचिवोतमापुरम, पी ओ कोट्टायम -686532	केरल	(14-03)
107	अथुराश्रामम एन.एस.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सचिवोथामापुरम, पीओ कुरिकी, जिला कोट्टायम-686532.	केरल	(14-04)
108	डॉ. पादियर मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, छोट्टानिककारा, एर्णाकुलम-682312.	केरल	(14-05)
109	श्री विद्याधिराज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नेमोम, तिरुवनंतपुरम-695020.	केरल	(14-06)
110	स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुलिस लाइन रोड के निकट, छत्रपुर (मध्य प्रदेश) - 471001	मध्य प्रदेश	(15-01)
111	जिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 478, काटजू नगर, रतलाम- 457 001	मध्य प्रदेश	(15-02)
112	आर.के.डी.एफ. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, माइल स्टोन 12, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462046.	मध्य प्रदेश	(15-03)
113	सोफिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (स्वास्तिक एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी), महलगंव, आरआई प्रशिक्षण संस्थान के सामने, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474002,	मध्य प्रदेश	(15-04)
114	अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, समदरिया ग्रीन सिटी के निकट, काशोधन नगर, मधोताल, जबलपुर-482 002.	मध्य प्रदेश	(15-05)
115	एच.के.ई. सोसाइटी का नारायण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, क्लिनिकल एवं अनुसंधान केंद्र, पुष्पा नगर, भोपाल रेलवे स्टेशन के निकट, भोपाल-462 010.	मध्य प्रदेश	(15-06)

116	हनेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नया जेल बाई-पास रोड, कराउंड, भोपाल--462 038.	मध्य प्रदेश	(15-07)
117	महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नीमखेडा, गौर तिराहा (मांडला रोड), मार्बल रॉक स्कूल के सामने, जबलपुर-482001	मध्य प्रदेश	(15-08)
118	ओम चेरिटेबल चिकित्सा समिति का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गाम पिपरोली, चिरवई नाका, लशकर, ग्वालियर-474001.	मध्य प्रदेश	(15-09)
119	आर.एन. कपूर होम्योपैथिक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर-देवास बाईपास रोड, गांव- अरंदिया, डाकखाना झालारिया, इंदौर-452016	मध्य प्रदेश	(15-10)
120	रानी दुलैय्या स्मृति होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल, बरखेडी कलां, भद्रभदा रोड, भोपाल-462044	मध्य प्रदेश	(15-11)
121	श्री गुजराती समाज श्रीमती कमलाबेन रावजी भाई पटेल गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एससीएच सं. 54 ए.बी. रोड.	मध्य प्रदेश	(15-12)
122	इंदिरा गांधी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 131, प्रकाश नगर, धार-454001	मध्य प्रदेश	(15-13)
123	लाल बहादुर शास्त्री (एल.बी.एस.) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सामर्दा कालियासोट, रत्नपुर, मंडीदीप रोड, भोपाल - 462026	मध्य प्रदेश	(15-14)
124	स्कूल ऑफ होम्योपैथी, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, एसएच-18, भोपाल-इंदौर रोड, ऑयलफील्ड प्लांट के सामने, पचामा, जिला सिहोर, सिहोर - 466001.	मध्य प्रदेश	(15-15)
125	शासकीय राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मैक्ट हिल्स, आयुष कैम्पस, कालियासोट बांध के साथ, चूना भट्टी, भोपाल-462003	मध्य प्रदेश	(15-16)
126	राम कृष्ण होम्योपैथी, कालेज तथा मेडिकल साइंसेज, आर के डी फ विश्वविद्यालय कैम्पस नियर एयरपोर्ट बाईपास रोड. गांधी नगर भोपाल- 462033	मध्य प्रदेश	(15-17)
127	संधवा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जिला बरवानी, संधवा-451666,	मध्य प्रदेश	(15-18)
128	शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बैरागढ चिचि, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल-462042.	मध्य प्रदेश	(15-19)
129	अरिहंत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एट संधवा जिला बरवानी-45166	मध्य प्रदेश	(15-20)
130	सागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अनुसंधान केन्द्र, नमक मण्डी, सागर-470 002	मध्य प्रदेश	(15-21)
131	शीतला सहाय होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अनुसंधान संस्थान केंसर अस्पताल, ग्वालियर (मप्र)	मध्य प्रदेश	(15-22)
132	श्री रामनाथ सिंह शिक्षा प्रसार समिति होम्योपैथी मेडिकल कालेज, गोरमी भिन्ड - 477660	मध्य प्रदेश	(15-23)
133	श्रीमती एस.एम. देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सरदार पटेल परिसर, गेखुरी, बालाघाट, जिला बालघाट-481001	मध्य प्रदेश	(15-24)
134	वसुंधरा राजे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, महदजी		

	नगर, शिवपुरी, लिंक रोड, ग्वालियर-474 001.	मध्य प्रदेश	(15-25)
135	रत्नदीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, जामखेड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जामखेड (रत्नपुर), ताल जामखेड, जिला अहमदनगर - 413201, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	(16-01)
136	डोंडुमामा साठे (डीएस) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एफपी सं.23, कारवे रोड के सामने, पुणे-411 004.	महाराष्ट्र	(16-02)
137	डॉ. डी.वाई. पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पिम्परी, जिला पुणे-411018.	महाराष्ट्र	(16-03)
138	डॉ. जी.डी. पोल फाउंडेशन येरला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र, सांस्थानिक क्षेत्र सेक्टर-4, खारघर रेलवे स्टेशन के सामने, खारघर, नवी मुंबई - 410210.	महाराष्ट्र	(16-04)
139	डॉ. जे.जे. मगदूम ट्रस्ट का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शिरोल वादी रोड. जयसिंहपुर, तालुका -शिरोल, जिला कोल्हापुर-416101	महाराष्ट्र	(16-05)
140	काका साहेब म्हास्के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नागापुर, एम.आई.डी.सी., अहमदनगर-414 111,	महाराष्ट्र	(16-06)
141	मोतीवाला (राष्ट्रीय) होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मोतीवाला नगर, गंगापुर सतपुर लिंक रोड, वाया नासिक, एचपीओ, नासिक - 422 001.	महाराष्ट्र	(16-07)
142	प्रभात एजुकेशन सोसाइटी का पी.डी. जैन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के पीछे, वकील कालोनी, परभनी-431 401.	महाराष्ट्र	(16-08)
143	नागपुर होम्योपैथी मेडिकल कालेज, नागपुर	महाराष्ट्र	(16-09)
144	पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, बडनेरा रोड अमरावती- 444605	महाराष्ट्र	(16-10)
145	श्री जनता होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टावर, जाथपीठ, रोड केडिया प्लाट अकोला- 444005	महाराष्ट्र	(16-11)
146	मौली होम्योपैथिक कालेज तथा अनुसंधान संस्थान तोंदार ता. उदगीर जिला लातूर 413517	महाराष्ट्र	(16-12)
147	गोंडिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जीएचएमसी परिसर, सूर्य टोला, गोंडिया-441614.	महाराष्ट्र	(16-13)
148	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चिंचोली, जलगांव, महाराष्ट्र- 425002	महाराष्ट्र	(16-14)
149	के.ई.एस. लोकनेते एडव. दत्ता पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बालासाहेब खरदेकर रोड, वेंगुरला, भटावडी, जिला सिंधुदुर्ग-416 516.	महाराष्ट्र	(16-15)
150	किसान ध्यानोदय मंडल का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, निमजारी रोड, शिरपुर जिला, धुले-425405.	महाराष्ट्र	(16-16)
151	एम.एच.एफ. का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, हानेमन हिल, पोखारीफाटा, गुंजालवाडी, तालुका सांगमनेर जिला अहमदनगर-422 605.	महाराष्ट्र	(16-17)
152	मातोश्री आसराबाई दराडे होम्योपैथिक कॉलेज, मातोश्री आसराबाई दराडे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बाबुलगांव, तह.	महाराष्ट्र	(16-18)



	येवला, जिला नाशिक		
153	ओमर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र, नया रेलवे स्टेशन, रजनी, ता. गन्सावांगी, जिला जालना - 425415	महाराष्ट्र	(16-19)
154	श्रद्धा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जिला-वाशिम, कोंडलाजाम्ने, महाराष्ट्र - 443301	महाराष्ट्र	(16-20)
155	नूतन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गेट सं. 412, लंगडेवाडी, तालुका क्वाथेमहांकल, जिला सांगली- 416405,	महाराष्ट्र	(16-21)
156	पुरुषोत्तमदास बागला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पठानपुरा मरदा रोड, अरवट, जिला चंद्रापूर-442402.	महाराष्ट्र	(16-22)
157	सायली चेरिटेबल ट्रस्ट, होम्योपैथी कॉलेज, गेट सं. 141, 150, 55, मितमिता, नासिक रोड, औरंगाबाद- 431003	महाराष्ट्र	(16-23)
158	श्री भगवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, सिडको एन-6, औरंगाबाद-431 003.	महाराष्ट्र	(16-24)
159	श्री तख्तमल श्रीवल्लभ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, होम्यो सदन, राजापेट, अमरावती-444 606	महाराष्ट्र	(16-25)
160	श्री तात्यासाहेब घटके चारिटेबल ट्रस्ट, आर.आर. पाटिल होम्योपैथी कॉलेज, पुणे बाईपास रोड, सांगली-416416.	महाराष्ट्र	(16-26)
161	विद्या वैभव शिक्षण मंडल दपोली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अपाति, डाकखाना तालसुर, तालुका-दपोली, जिला रत्नागिरी, पिन--415 712	महाराष्ट्र	(16-27)
162	दिशा शिक्षण-वी-विकास केंद्र का ई.बी. गडकरी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 1830/ए/बी, कडगांव रोड, सरकारी आराम गृह के सामने, गांधिगलाज, जिला कोल्हापुर - 416 502.	महाराष्ट्र	(16-28)
163	गाँधी नाथा रंगाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 13, बुद्धवार पेठ, जैन बोर्डिंग कैम्पस, बाली वेस, सोलापुर-413002	महाराष्ट्र	(16-29)
164	भारती विद्यापीठ का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, धनकावडी, कटराज, पुणे-411043.	महाराष्ट्र	(16-30)
165	दक्षिण केसरी मुनि मिश्रीलालजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बिबि का मकबरा के पीछे, श्री गुरु गणेश नगर, औरंगाबाद-431 004	महाराष्ट्र	(16-31)
166	डॉ. एम.एल. धावले मेमोरियल होम्योपैथिक संस्थान, एस.टी. कार्यशाला के सामने, पालघर बोर्डसर रोड, पालघर - 401 404 (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	(16-32)
167	फोस्टर डेवलपमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एन-5, गुलमोहर कालोनी के पीछे, सिडको, औरंगाबाद - 431003.	महाराष्ट्र	(16-33)
168	गुरु मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शेलगांव, तालुक बदनापुर, जिला जालना - 431 202	महाराष्ट्र	(16-34)
169	राष्ट्रीय होम्यो विज्ञान मेडिकल कॉलेज (वामनराव इथपे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज), न्यू नगर रोड, संगमनेर, जिला अहमदनगर-422 605	महाराष्ट्र	(16-35)
170	पंचशील होम्योपैथिक शिक्षण प्रसारक मंडल का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सिविल लाइंस, केलानगर, खमगांव-444 303, जिला बुलढाण	महाराष्ट्र	(16-36)
171	पौरवी शिक्षण प्रसारक मंडल का महिला होम्योपैथिक मेडिकल	महाराष्ट्र	(16-37)

	कॉलेज एवं अस्पताल, 283/1बी, कोलगिरि नगर, होटगी रोड, माजरेवाडी, सोलापुर, महाराष्ट्र		
172	अहमदनगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सवेदी रोड, अहमदनगर -414003	महाराष्ट्र	(16-38)
173	अनंतराव कांसे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अलेफाटा, ताल, जूनार, जिला पुणे-412411.	महाराष्ट्र	(16-39)
174	अंतरभारती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (ढाभा), नागपुर- 440 023.	महाराष्ट्र	(16-40)
175	अटल बिहारी वाजपेयी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जलके (बीके), खडके, तालुक नेवारा, जिला अहमदनगर	महाराष्ट्र	(16-41)
176	श्री जगद्गुरु पंचाचार्य एजूकेशन सोसाइटी का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 200 ई, तारानी चौक, कोल्हापुर- 416 003.	महाराष्ट्र	(16-42)
177	बालीराजा शिक्षण प्रसारक मंडल का पद्मश्री श्यामरावजी कदम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, सीआईडीसीओ, नया नांदेड- 431603.	महाराष्ट्र	(16-43)
178	धनवंतरी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, धनवंतरी परिसर, कामतवाडे, अभियंता नगर के सामने, सीआईडीसीओ, नासिक-422008.	महाराष्ट्र	(16-44)
179	गोदावरी फाउंडेशन का डॉ. उल्हास पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोदावरी अस्पताल, एम जे कालेज रोड., जिला जलगाँव - 425001.	महाराष्ट्र	(16-45)
180	श्रीमती कंचनबाई बाबूलालजी (के.बी.) अबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांव एवं डाकखाना नेमिनगर, चंदवाड, जिला नासिक-423 101	महाराष्ट्र	(16-46)
181	सोनाजीराव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विद्या नगर (पश्चिम), कॉलेज रोड, बीड-431 122.	महाराष्ट्र	(16-47)
182	गुलाबराव पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 795, गुलाबराव पाटिल एजूकेशन परिसर, सरकारी मिल्क डेयरी के निकट, जिला सांगली, मिराज- 416410.	महाराष्ट्र	(16-48)
183	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अकोट रोड, अकोला-444001.	महाराष्ट्र	(16-49)
184	जनसेवा मंडल का साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, दुगद फाटा, तहसील-भिवंडी, जिला थाणे-421302 (महाराष्ट्र).	महाराष्ट्र	(16-50)
185	के.ई.एस. का चंद्रांकांत हरि केलुस्कर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अलीबाग, जिला रायगढ-402 201.	महाराष्ट्र	(16-51)
186	कोंकण एजूकेशन एंड मेडिकल ट्रस्ट का विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वीर सावरकर मार्ग, विरार, तहसील वसई, जिला थाणे-401305.	महाराष्ट्र	(16-52)
187	स्व. श्रीमती हौसाबाई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, निमशिरगांव-416101, सांगली-कोल्हापुर रोड, धर्मन्गा के निकट, ताल-शिरोल, जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	(16-53)
188	लोकामान्य मेडिकल फाउंडेशन का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ऐल्पो कंपनी के निकट, पीसीएम चिंचवाड सभागार के पीछे, पुणे- 411 033.	महाराष्ट्र	(16-54)

189	महालक्ष्मी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एस.सं. 259, डाकखाना रायगांव, तालुका जाओली, सतारा-415020. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	(16-55)
190	राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केन्द्र, अहमदनगर-	महाराष्ट्र	(16-56)
191	समर्थ एजूकेशन ट्रस्ट का स्वाकार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एएम-1/1, अपर एमआईडीसी, देगांव रोड, सतारा-415004.	महाराष्ट्र	(16-57)
192	शरदचंद्रजी पेंवार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिवा ट्रस्ट कैम्पस, वडाला-महादेव, तालुका श्रीराम जिला अहमदनगर-413739.	महाराष्ट्र	(16-58)
193	श्री चामुंडामाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 9, 10, 11 गायद्वी नगर टेलीफोन एवं पारख नगर, जिल्हा पेठ, जलगांव-425003.	महाराष्ट्र	(16-59)
194	श्रीमती चंदाबेन मोहनभाई पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, इरला, नटाक्कर आर.जी. गडकरी मार्ग, विले, पारले (पश्चिम), मुंबई-400 056.	महाराष्ट्र	(16-60)
195	एस वी वी पी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, वी-101, तुलसी आर्केड, कनाट प्लेस, सिडको, औरंगाबाद-431003, हिंगोली	महाराष्ट्र	(16-61)
196	वसंतराव काले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पी-12, एम.आई.डी.सी., कलाम रोड, लातूर-413 531.	महाराष्ट्र	(16-62)
197	वेनुतई यशवंतराव चवाण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 2968, "सी", दसारा चौक, कोल्हापुर-416002.	महाराष्ट्र	(16-63)
198	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, मवडियांगडियांग, शिलांग, -793018.	मेघालय	(17-01)
199	कटक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नया बाजार, कटक - 753004.	ओडिशा	(18-01)
200	डॉ. अभिन चंद्रा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, यूनिट-III, खारवेला नगर, भुवनेश्वर, जिला पुरी-751 001	ओडिशा	(18-02)
201	बीजू पटनायक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बरहामपु, पिन--760001 (गंजम.)	ओडिशा	(18-03)
202	मयूरभंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गांव एवं डाकखाना बारीपदा, जिला मयूरभंज- 757029.	ओडिशा	(18-04)
203	उडीसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान, संबलपु-768 001.	ओडिशा	(18-05)
204	मंजरी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पुरानापधान, प्लाट सं.262, पोस्ट-सिसिलो, वाया बलिआंटा, भुवनेश्वर, जिला खोरधा, ओडिशा - 752100	ओडिशा	(18-06)
205	उत्कलमणि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नया बाजार, राउरकेला, ओडिशा-769010	ओडिशा	(18-07)
206	होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़ रोड (बाई पास के निकट), अबोहर-152 116.	पंजाब	(19-01)
207	श्री गुरुनानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कैनाल रोड, ब्रेवाल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के निकट, वाया अयालिकलां, लुधियाना-142027.	पंजाब	(19-02)

208	कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कालेज, तरण तारन साहिब पंजाब-004	पंजाब	(19-03)
209	लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉ. हानेमन चौक, किचलू नगर, सिविल लाइंस, लुधियाना-141 001.	पंजाब	(19-04)
210	मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, एम.एन.एस. अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, बीकानेर-334001	राजस्थान	(20-01)
211	श्री गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर-335002	राजस्थान	(20-02)
212	स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, जय विला, नारायण सिंह रोड, त्रिमूर्ति सर्किल के निकट, जयपुर-302004	राजस्थान	(20-03)
213	भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एनएच-11, आगरा-फतेहपुर सीकरी रोड, भरतपुर, राजस्थान – 320001	राजस्थान	(20-04)
214	आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पी. नं.104/1, ढाणी कगोटा की नैला कनोटा, जामवरमगढ़, जयपुर - 303012.	राजस्थान	(20-05)
215	राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, विद्यापीठ परिसर, डबोक, उदयपुर-313 002	राजस्थान	(20-06)
216	होम्योपैथी विज्ञान संकाय के अधीन, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान वैली, झरना, महिला जोबर, लिंक रोड, जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे, एनएच-8, जयपुर-303122	राजस्थान	(20-07)
217	माधव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, माधव हिल्स, पोस्ट-भारजा, तहसील-पिंडवारा, बानस रिवर ब्रिट टोल के सामने, एचएन-27, आबू रोड, सिरोही- 307026	राजस्थान	(20-08)
218	डॉ. मदन प्रताप खुटेडा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी प्लॉट सं. 10-11 और 12, गांव साईपुरा, सांगानेर, जयपुर-302029.	राजस्थान	(20-09)
219	विश्वविद्यालय होम्योपैथिक कॉलेज, केकरी, अजमेर-305404	राजस्थान	(20-10)
220	विश्वविद्यालय होम्योपैथिक कॉलेज, कादवाड, जोधपुर	राजस्थान	(20-11)
221	ओ पी जे एस होम्योपैथी मेडिकल कालेज, वी पी ओ – रावत सरकुंजला, नियर संखु फोर्ट राजगढ़ सादुलपुर झुनघुनु रोड, चुरू राजस्थान -331303	राजस्थान	(20-12)
222	युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, शिवाजी पार्क, अलवर- 301 001	राजस्थान	(20-13)
223	मार्टिन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, डी.पी.एफ. मिल परिसर, जी.एन. मिल्स (पी ओ), मेट्टुपलायम रोड, कोयंबटूर-641 029.	तमिल नाडु	(21-01)
224	श्री साईराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र (सप्तगिरी एजुकेशन ट्रस्ट), साई लियो नगर ताम्रम पश्चिम, चेन्नई -600044,	तमिल नाडु	(21-02)
225	वेंकटेश्वर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सं; 4/11, समयपुरम मेन रोड, करमबक्कम, पोरुर, चेन्नई-600 116.	तमिल नाडु	(21-03)
226	सारदा कृष्णन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कुलासेखरम जिला कन्याकुमारी - 629161.	तमिल नाडु	(21-04)

227	विनायक मिशन का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, चिन्नासीरगापाडी, पीओ रा०रा०-47 संकरी मेन रोड, सलेम - 636 308.	तमिल नाडु	(21-05)
228	व्हाइट मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अत्तूर, वीयानूर - 629 177, जिला कन्याकुमारी	तमिल नाडु	(21-06)
229	डॉ. हानेमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, कोनेरीपट्टी, रासीपुरम, नामक्कल जिला- 637408.	तमिल नाडु	(21-07)
230	एक्सेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एनएच 544, रांगानूर रोड, सनकारी पश्चिम पोस्ट, पालक्कापलायम कोमरपलाएम, नामाकल, तमिल नाडु - 637303	तमिल नाडु	(21-08)
231	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तिरुमंगलम, जिला मदुरै-626 706.	तमिल नाडु	(21-09)
232	मारिया एजूकेशन और चारिटेबल ट्रस्ट, चेवाराकोड कन्याकुमारीज मारिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पेराय थिरुवत्तार पीओ, कन्याकुमारी जिला,- 629177.	तमिल नाडु	(21-10)
233	आर.वी.एस. मेडिकल ट्रस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 242 बी, त्रिची रोड, सुलूर, कोयंबटूर जिला- 402	तमिल नाडु	(21-11)
234	सिवराज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, सिधार कोविल रोड, थुम्बाथुलिपट्टी, पेरुममपथी (पीओ), सलेम- 636 307.	तमिल नाडु	(21-12)
235	एस.वी.एस. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कल्लाकुरिची - 606202, विल्लुपुरम जिला,	तमिल नाडु	(21-13)
236	श्री बरानी होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तिरुचेनगोडे, नामाकल	तमिल नाडु	(21-14)
237	जे.एस.पी.एस. शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रामनाथपुर, हैदराबाद - 500 013.	तेलंगाना	(22-01)
238	जिम्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्री रामनगर, मुच्चिंतल ग्राम, पालमाकुला, पी.ओ. शम्साबाद मण्डल, जिला रंगारेड्डी -509325	तेलंगाना	(22-02)
239	देवस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, देवानगर, अंकिरेड्डी पल्ली, केसारा मंडल, आर आर जिला- 501301	तेलंगाना	(22-03)
240	गुरु नानक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इब्राहीमपतनम, रानारेड्डी जिला, हैदराबाद-501506	तेलंगाना	(22-04)
241	एमएनआर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 2- 23बी/350, भाग्यनगर, फेस-III, एचएमटी हिल्स कालोनी के निकट, जेएनटीयू के सामने, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500085	तेलंगाना	(22-05)
242	श्रेयान ईशान एजूकेशनल सोसायटी, हमसा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, क्षीरसागर गांव, मुलुगू मंडल, मेढक जिला- 502279, तेलंगाना	तेलंगाना	(22-06)
243	परम हिमालय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र, खैरी रोड, दोईवाला, देहरादून-248140.	उत्तराखंड	(23-01)
244	चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, किच्छा रोड, रूद्रपुर, पीओ लालपुर, जिला उद्यमसिंह नगर, नैनीताल, - 263148.	उत्तराखंड	(23-02)

245	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 1, विराज खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226001	उत्तर प्रदेश	(24-01)
246	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बी-36, नॉलेज पार्क, फेस-1, ग्रेटर नोएडा (जिला गौतम बुद्ध नगर) - 201 306	उत्तर प्रदेश	(24-02)
247	नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, गांव नवलपुर, तहसील एटमादपुर, आगरा - 283206	उत्तर प्रदेश	(24-03)
248	पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ब्लॉक ए/1, स्कीम-38, लखनपुर, कल्याणपुर, कानपुर - 208024.	उत्तर प्रदेश	(24-04)
249	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फाफामऊ, इलाहाबाद -02	उत्तर प्रदेश	(24-05)
250	राजकीय डॉ. त्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, देवकलि, फैजाबाद--224001.	उत्तर प्रदेश	(24-06)
251	श्री साईनाथ होम्योपैथिक स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज संस्थान और अनुसंधान केंद्र, 109/04, जार्ज टाउन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211003	उत्तर प्रदेश	(24-07)
252	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रौजा, गाजीपुर-233001.	उत्तर प्रदेश	(24-08)
253	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोरखपुर-273402. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	(24-09)
254	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कासिमपुर रोड, छीरत, अलीगढ़-202122, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	(24-10)
255	राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रेलवे लाइन पार, मुरादाबाद- 001.	उत्तर प्रदेश	(24-11)
256	राजकीय श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चंदेश्वर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश - 276 001.	उत्तर प्रदेश	(24-12)
257	बंगाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इस्माइल, पीओ आसनसोल -713 301, जिला बर्धवान	पश्चिम बंगाल	(25-01)
258	बिरभूम विवेकानंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पीओ सैंथिया, जिला बिरभूम-731234	पश्चिम बंगाल	(25-02)
259	नेतई चरण चक्रवर्ती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 45, 'एफ' रोड, बेलगचिया, हावड़ा-711 101.	पश्चिम बंगाल	(25-03)
260	डी.एन. डे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 12, जी.के. रोड, कोलकाता-700 046	पश्चिम बंगाल	(25-04)
261	महेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एच.आई.टी. रोड, इच्छापुर, दूमूर्जला हावड़ा-4	पश्चिम बंगाल	(25-05)
262	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ब्लॉक-जीई, सेक्टर-III, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106.	पश्चिम बंगाल	(25-06)
263	दें कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 265/66, आचार्य प्रफुल्ल चंद्रा रोड, कोलकाता-09	पश्चिम बंगाल	(25-07)
264	बर्धवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, निंबारक भवन राज गंज पीओ नूतनगंज, जिला बर्धवान-713 102	पश्चिम बंगाल	(25-08)
265	खड़गपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कौशलया, पीओ खड़गपुर-721 301. जिला मिदनापुर	पश्चिम बंगाल	(25-09)

266	मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, रामचंद्रपुर, सोदेपुर, कोलकाता-700 110.	पश्चिम बंगाल	(25-10)
267	मिदनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पीओ और जिला मिदनापुर-721 104.	पश्चिम बंगाल	(25-11)
268	प्रताप चंद्र मेमोरियल होम्योपैथिक अस्पताल और कॉलेज, 14/1, नरकेलडंगा नॉर्थ रोड, कोलकाता -700 011	पश्चिम बंगाल	(25-12)

**अनुलग्नक -V****(आयुर्विज्ञान अर्हता कोड)**

(विनियम 3 उप विनियम (1) देखें )

क्रम सं.	अर्हता	कोड
(1)	(2)	(3)
1	स्नातक	अ
2	स्नातकोत्तर	ब
3	होम्योपैथी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई अर्हता	स

XXXXXX

**अनुलग्नक -VI**

(विनियम 3 उप विनियम (2) देखें )

(होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार भारत में विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा मेडिकल संस्थान का नाम	मान्यता प्राप्त अर्हता	पंजीकरण हेतु उप नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**अनुलग्नक -VII**

(विनियम 3 देखें )

आयुर्विज्ञानी अर्हता मान्यता सूची (एम क्यू आर एल)  
(अधिनियम की धारा 35 देखें)

(भारत में विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं०	राज्य (कोड)	विश्वविद्यालय का नाम (कोड)	मेडिकल संस्थान का नाम (कोड)	आयुर्विज्ञानी अर्हता (कोड)	डिजिटल (कोड)	वैधता अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

XXXXXX

**अनुलग्नक -VIII**

(विनियम 6 देखें)

आयुर्विज्ञानी अर्हता मान्यता सूची (एम क्यू आर एल)

(अधिनियम की धारा 36 देखें)

(भारत से बाहर विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं०	देश (कोड)	विश्वविद्यालय का नाम (कोड)	मेडिकल संस्थान का नाम (कोड)	अर्हता (कोड)	वैधता अवधि	डिजिटल कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

XXXXXX

**अनुलग्नक -IX**

(विनियम 6 देखें)

(होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची के अनुसार भारत से बाहर किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त होम्योपैथी अर्हता)

क्रम सं०	विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा मेडिकल संस्थान का नाम	मान्यता प्राप्त अर्हता	पंजीकरण हेतु उप नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

XXXXXX

प्रपत्र-अ

( विनियम 3 उप विनियम (4) तथा विनियम 4 उप विनियम(2) देखें )

भारत में स्नातक पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता हेतु आवेदन

- 1 अर्हता प्रदान करने वाले आवेदक विश्वविद्यालय का नाम :
- 2 आवेदक कालेज/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम :
- 3 स्नातक पाठ्यक्रम का पूरा नाम :
- 4 स्नातक पाठ्यक्रम का उप नाम :
- 5 दाखिल सत्र/ बैच हेतु आवेदन :
- 6 आवेदन के समय (आन लाईन/ऑफ लाईन) सभी दस्तावेजों को उचित माध्यम से जमा करना होगा :
- 7 आवेदित पाठ्यक्रम हेतु आयुर्विज्ञान संस्थानों/विश्वविद्यालयों से संबद्ध अनुमति प्राप्त होम्योपैथी मेडिकल कालेज दाखिल क्षमता सहित :-

क्रम सं.	महाविद्यालय/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम	पता	ई-मेल	वेब साइट	आवेदित शैक्षणिक सत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

XXXXXX

केन्द्रीय सरकार / न्यायालय से विशिष्ट बैच के लिए अनुमति (प्रति संलग्न/ अपलोड करें)	अनुमति प्राप्त दाखिला क्षमता	दाखिल छात्रों की संख्या	टिप्पणी यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)



8. निम्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल छात्रों का विवरण उपलब्ध करायें :-

क्रम सं.	छात्रों का नाम	दाखिले की तिथि	सामान्य योग्यता		प्रवेश कोटा		द्वारा प्रवेश	
			रैंक	प्राप्तांक	अखिल भारतीय हॉ/ना	राज्य (हॉ/ना)	प्राधिकरण पर प्रवेश	न्यायालय आदेश तथा अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

विश्वविद्यालय प्रवेश पंजीकरण की तिथि	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	गृह शिक्षुता पूर्ण की तिथि	टिप्पणी यदि कोई हो
(10)	(11)	(12)	(13)

9. कालेज अनुसार/ संस्थान अनुसार स्थानांतरित छात्रों का विवरण उपलब्ध करायें :-

9-अ अन्य कालेज में स्थानांतरित छात्रों का विवरण ( सहायक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें) :-

क्रम सं०	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	छात्र का नाम	स्थानान्तरण की तिथि	स्थांतरण का व्यावसायिक वर्ष	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9-ब अन्य कालेज से स्थानांतरित छात्रों का विवरण( सहायक दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें) :-

क्रम सं.	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	छात्र का नाम	स्थानान्तरण की तिथि	स्थांतरण का व्यावसायिक वर्ष	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10 – गृह शिक्षुता वाले छात्रों का पाठ्यक्रम हेतु विवरण:-

क्रम सं०	छात्र का नाम	दाखिले की तिथि	अंतिम बी एच एम एस पूर्ण कर परीक्षा परिणाम की तिथि	अस्थायी पंजीकरण सं०	अस्थायी पंजीकरण का वर्ष (राज्य होम्योपैथी मेडिकल परिषद् / होम्योपैथी बोर्ड से)	गृहशिक्षुता आरंभ की तिथि	गृहशिक्षुता पूर्ण करने की तिथि	टिप्पणी यदि कोई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

पंजीक के हस्ताक्षर  
विश्वविद्यालय की मुहर एवं तिथि सहित

संलग्नकों की सूची :-

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञानी अर्हता सूची में सूचीबद्धता हेतु आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा निम्न सूचना की सहायक दस्तावेजों को अपलोड अथवा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा:-

- (1) संबंधित विश्वविद्यालय के पंजीयक द्वारा हस्ताक्षरित (मुहर) तथा संबंधित महाविद्यालय/ आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सभी दस्तावेज
- (2) वर्तमान (तथा पूर्व में) में विश्वविद्यालय से संबद्ध होम्योपैथी कालेजों / आयुर्विज्ञान संस्थानों की संख्या (उनके नाम, पते तथा दाखिल क्षमता) का विवरण
- (3) विश्वविद्यालय अध्यादेश / विनियमों की प्रति ( विश्वविद्यालय पंजीयक के हस्ताक्षर युक्त )
- (4) विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों के दाखिले का विवरण, छात्रों के नाम, दाखिले की तिथि, एन ई ई टी प्राप्तांक – यदि लागू हो, वार्षिक परीक्षा की तिथि जिसमें वे उपस्थित हुए हों तथा उसमें प्राप्तांक को अपलोड अथवा उपलब्ध कराये,
- (5) संलग्न प्रपत्र में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थांतरण का विवरण तथा पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् तथा विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त है, अपलोड अथवा उपलब्ध करवाये,
- (6) पाठ्यक्रम में असफल छात्रों का विवरण, यदि हों तो संख्या (महाविद्यालय अनुसार) तथा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या (अलग अलग) उपलब्ध कराये,
- (7) प्रत्येक छात्र द्वारा आवश्यक गृह शिक्षता आरंभ एवं पूर्णता की तिथि जो कि सभी विषयों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किये हो प्रशिक्षण देने वाले अस्पताल का नाम जहाँ वह प्रशिक्षण प्राप्त किया हो / की हो, (राज्य होम्योपैथी परिषद् प्रदत्त अस्थाई पंजीकरण संख्या )
- (8) केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट वर्ष हेतु प्रदत्त मान्यता की प्रति,
- (9) अन्य सूचना जब जैसी आवश्यक हो ।

#### प्रपत्र-ब

( विनियम 3 उप विनियम (4) तथा विनियम 4 उप विनियम(2) देखें )

भारत में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम अथवा अन्य कोई होम्योपैथी आयुर्विज्ञान अर्हता हेतु आवेदन

- 1 अर्हता प्रदान करने वाले आवेदक विश्वविद्यालय का नाम :
- 2 आवेदक कालेज/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम :
- 3 स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम का पूरा नाम :
- 4 स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम का उप नाम :
- 5 दाखिल सत्र/ बैच हेतु आवेदन :
- 6 आवेदित पाठ्यक्रम हेतु आयुर्विज्ञान संस्थानों / विश्वविद्यालय से संबद्ध अनुमति प्राप्त होम्योपैथी मेडिकल कालेज दाखिल क्षमता सहित :-

क्रम सं.	महाविद्यालय/केन्द्र/ आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम	पता	ई-मेल	वेब साइट	आवेदित शैक्षणिक सत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

XXXXXX

केन्द्रीय सरकार / न्यायालय से विशिष्ट बैच के लिए अनुमति (प्रति संलग्न करें)	अनुमति प्राप्त दाखिला क्षमता	दाखिल छात्रों की संख्या	टिप्पणी यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)

7. निम्न प्रारूप के अनुसार एमडी (होम) पाठ्यक्रम हेतु (विशेषज्ञता के विषयों के अनुसार)/ अन्य कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल नियमित छात्रों की संख्या (वर्ष एवं विषयानुसार) उपलब्ध करायें :-

छात्र का नाम महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि सहित	पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में पंजीकरण की तिथि	सामान्य योग्यता		प्रवेश कोटा		द्वारा प्रवेश	
		रैंक	प्राप्तांक	अखिल भारतीय हाँ/ना	राज्य (हाँ/ना)	प्राधिकरण पर प्रवेश हाँ / ना	न्यायालय आदेश तथा अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अर्हता (डिग्री) का नाम प्रदत्त प्राधिकारी का नाम तथा एम डी (होम) में प्रवेश का वर्ष	स्नातक स्तर पर गृह शिक्षुता पूर्णकरने की तिथि	राज्य होम्योपैथी परिषद् में पंजीकरण की तिथि	एम डी (होम) पार्ट-1 परीक्षा पूर्णता की तिथि /निर्धारित परीक्षा	एम डी (होम) पार्ट -2 का परीक्षा पूर्णता की तिथि /निर्धारित परीक्षा	एम डी (होम) पार्ट -2 का परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	टिप्पणी यदि कोई
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

8. स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा किए गये कार्यों का विवरण-

8. - अ. स्नातकोत्तर छात्रों के शोध निबंध (डिजर्टेशन) के विषय- वार्षिक/अनुभाग अनुसार:-

क्रम सं०	छात्र का नाम	हाउस जॉब की अवधि .... से .... तक	विषय का नाम	जमा करने की तिथि	प्रकरण से कोई प्रकाशन हाँ / ना	यदि हाँ विवरण दें ( लेख का विषय/जर्नल का नाम / वर्ष / माह / अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ब. स्नातकोत्तर छात्रों, बैच द्वारा दिए गये व्याख्यान:-

क्रम सं.	छात्र का नाम	कक्षा	तिथि व दिन	समय	विषय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स. स्नातकोत्तर छात्रों, बैच द्वारा दी गई प्रस्तुति/ संगोष्ठी में भाग लिया:-

क्रम सं.	छात्र का नाम	प्रस्तुति की सूची	भाग लिए गए सम्मिनार का विषय
(1)	(2)	(3)	(4)

XXXXXX

पंजीयक के हस्ताक्षर  
विश्वविद्यालय की मुहर एवं तिथि सहित

संलग्नकों की सूची :- अपलोड अथवा उपलब्ध करायें

- (i) स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम विशेषज्ञता के विषयवार,बैचवार, स्नात्कोत्तर प्रवेश परीक्षा (जो भी लागू हो ), प्राप्तांक, संबंधित महाविद्यालय द्वारा पंजीकृत जिनकी जाँच विश्वविद्यालय द्वारा (आज तक) की गई हो, छात्रों के नामों का विवरण उपलब्ध अथवा अपलोड करेगा,
- (ii) संबंधित महाविद्यालय के होम्योपैथी अस्पताल में स्नात्कोत्तर छात्रों हेतु अंतःरोगी विभाग में निर्धारित शैय्या का रोगी द्वारा माहवार/वार्षिक अधिभोग का विवरण अपलोड अथवा उपलब्ध करवायें,
- (iii) स्नात्कोत्तर छात्रों द्वारा विभाग में हाउस जाँब अथवा प्रशिक्षण के दौरान किए गए कार्यों का रिपोर्ट अपलोड अथवा उपलब्ध करायें,
- (iv) विश्वविद्यालय अध्यादेश अथवा विनियमों की प्रति (विश्वविद्यालय पंजीयक द्वारा सत्यापित), स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाए,
- (v) विभिन्न विशेषज्ञता के विषयों के जारी सभी परीक्षा परिणामों की प्रति (महाविद्यालयवार, योग्य बैचवार),
- (vi) अन्य आवश्यक सूचना यदि आवश्यक हो ।

प्रपत्र- स

(विनियम 5 देखें)

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 35 के अंतर्गत

(भारत में डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय हेतु ) आयुर्विज्ञानी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु अपील करने हेतु आवेदन-

निदेश :-

1. डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा जमा करने हेतु आवेदन
2. यदि एक विश्वविद्यालय से एक से अधिक संस्थान संबद्ध हों तो प्रत्येक संस्थान के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा
3. आवेदन या तो प्रथम बैच के अस्थायी प्रमाण पत्र जारी होने या डिग्री प्रदान करने , या गृह शिक्षता के दौरान जमा की जा सकती है

1	पीडित विश्वविद्यालय का नाम	
2	पीडित विश्वविद्यालय का पता	
3	संबंधित विश्वविद्यालय पंजीयक का ई – मेल	
4	संपर्क व्यक्ति (नाम तथा पद)	
5	मोबाईल नं0 (संपर्क व्यक्ति )	
6	ई-मेल पता (संपर्क व्यक्ति )	
7	आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम	
8	पाठ्यक्रम की नाम पद्धति	
9	पाठ्यक्रम का उपनाम (यदि हो)	

10	बोर्ड को प्रथम आवेदन की तिथि	
11	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन नामंजूर करने की तिथि	
12	संबंधित बोर्ड द्वारा आवेदन नामंजूर करने के कारण	
13	विश्वविद्यालय को अपील/प्रार्थना	
14	अपील करने का औचित्य दस्तावेजों सहित	
नोट : कृपया जहाँ लागू नहीं है वहाँ लागू नहीं लिखें		

संलग्नक :-

1. सफल अभ्यर्थियों को जारी करने वाली डिग्री की मूल रद्द प्रति / नमूना प्रति
2. संचालन करने वाली विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या की प्रति

#### घोषणा अथवा प्रमाण पत्र

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण अथवा संलग्न मेरे विश्वास एवं जानकारी से सत्य है। मैं सुनिश्चित करता हूँ, कि यह विश्वविद्यालय /प्रदत्त निकाय पूर्णता से उन नियम तथा विनियम जो कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग / पूर्ववर्ती केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा लागू किये गये हों तथा होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है, पालन करते हैं।

पंजीयक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय की मुहर एवं तिथि सहित  
(जारी करने वाले प्राधिकारी)

पदनाम

[टिप्पणी : यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

**NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2023

**F. No. 3-41/2022/NCH/HEB/Regulation-DRL-Pt. .**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (zk), (zl), (zm), (zn), (zo) and (zp) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following regulations, namely: -

**1. Short title and commencement. - (1)** These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Recognition of Qualifications of Homoeopathy) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions. - (1)** In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020);

(b) “Annexure” means an Annexure appended to these regulations;

(c) “Board” means the Homoeopathy Education Board;

(d) “Course” means the course of study in Homoeopathy, namely: -

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S), an undergraduate qualification in Homoeopathy listed and maintained by the Board;

(ii) M.D (Homoeopathy) or Post Graduation in Homoeopathy, a postgraduate qualification in Homoeopathy listed and maintained by the Board;

(e) “Digital Code” means the code given to the recognised medical qualification.

(f) “Form” means a form appended to these regulations;

(g) “medical qualification” means Diploma, undergraduate Degree, postgraduate Degree, super- speciality in Homoeopathy or any other such qualification as recommended by the Board in Homoeopathy medical systems awarded by approved Medical Institutions or Universities, as the case may be;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Recognition of medical qualifications awarded by Universities or medical institutions in India. – (1)** The Board shall, for including a medical qualification awarded by Universities or medical institutions in India, list and maintain in the following manner, namely:-

(i) the list of recognised medical qualification given in Annexure-I shall be displayed on Commission’s web portal;

(ii) while including the recognised medical qualification in the list, the validity period of such recognition shall be mentioned as specified in Annexure-VII;

(iii) the Board shall communicate the details of recognised medical qualification to the respective State or Union territories Medical Councils for Homoeopathy in the given format as specified in Annexure- VII;

(iv) for the purpose of inclusion and listing of medical qualification, a Digital Code shall be generated which shall be a combination of the abbreviated name of the State or Union territory, University code, medical institution code followed by qualification abbreviation code and amendments, if any, wherein, -

(a) State or Union territory shall be denoted by the abbreviated name of the State or Union territory as the case may be, in which the University is located as specified in Annexure-II;

(b) University shall be denoted by the abbreviated name of the University, in which the medical institution is affiliated as specified in Annexure-III;

(c) medical institution shall be denoted by the abbreviated name of the medical institution, as allotted by the Commission as specified in Annexure-IV;

(d) medical qualification Codes shall denote qualifications as specified in Annexure-V.

- (2) The Board shall list and maintain all medical qualifications recognised and included in the Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) as specified in Annexure- VI and the list shall be displayed on Commission's web portal.
- (3) The Board shall list and maintain all medical qualifications as specified in Annexure- VII and these medical qualifications shall be recognised medical qualification for the purposes of the Act.
- (4) All the Universities or medical institutions after the notification of this regulation shall apply for further continuation of recognition of the qualification in the medical qualification recognition list in the prescribed Form A or Form B as the case may be, in the manner and procedure as mentioned in regulation 4.
- (5) The Board may inspect or appoint inspectors to inspect the University or medical institution if required before deciding on grant of recognition of the medical qualification to examine academic training and examinations conducted in medical institution.

**4. Examination of application.** - (1) For the grant of recognition of medical qualifications of Homoeopathy, the Board shall examine the following eligibility criteria, namely: -

- (a) (i) the medical institution or University shall be located in India;
- (ii) the medical institution or University shall be duly permitted by Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;
- (iii) nomenclature of medical qualification awarded by medical institution or University shall be approved by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;
- (iv) duration of the Course of medical qualification awarded by medical institution or University shall be such as laid down by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;
- (v) syllabus or curriculum adopted for the Course shall be such as laid down by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;
- (vi) evaluation system for the Course shall be such as laid down by the Commission or Central Government or *erstwhile* Central Council for Homoeopathy;
- (b) The details of nomenclature and duration of approved medical qualifications for Homoeopathy shall be provided as specified in Annexure –I.

(2) (a) University or medical institution fulfilling the eligibility criteria as specified in sub-regulation (1), shall submit duly filled application form offline or online addressed to the President, Board,- (i) for undergraduate Course or any other medical qualification in Homoeopathy as recommended by the Board, application shall be submitted as per the given format specified under Form – A within forty-five days of completions of undergraduate internship.

(ii) for postgraduate Course application shall be submitted as per the given format specified under Form – B within forty-five days of completions of postgraduate Course:

Provided that newly established medical institution of undergraduate Course with due approval by Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy or the Central Government, may initiate the process for applying for grant of recognition of qualification through the degree awarding University, when the students enter internship:

Provided further, that if the established medical institution started a new Course or Higher Course in Homoeopathy with due approval by Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, may initiate the process for applying for grant of recognition of qualification through the degree awarding University, when the students are in final year of the respective course.

- (b) the Board shall examine and process the received applications as per the criteria specified in sub-regulation (1).
- (c) after processing of the application by the Board, an order either to grant recognition or denial of recognition shall be communicated to the applicant within a period of six months from the date of receipt of such application.
- (d) in case, the Board finds any deficiency, an opportunity to rectify such deficiency shall be given to the applicant and if the applicant fails to rectify such deficiency, the application shall be rejected and order with the reasons shall be communicated to the applicant.

**5. Appeal to the Commission for grant of recognition of medical qualifications.** –

- (1) The applicant whose application under sub- regulation (2) of regulation 4 has been rejected may prefer an appeal against the order to the Commission addressed to the Chairperson, National Commission for Homoeopathy within a period of sixty days from the date of communication of such order.

- (2) The applicant may appeal offline or online in the specified Form-C duly filled for undergraduate Degree Course or postgraduate Degree Course.
- (3) The Commission shall examine such appeal as per the eligibility criteria as specified in sub- regulation (1) of regulation 4 within a period of two months and if the Commission decides that recognition may be granted to such medical qualification, the Commission may direct the Homoeopathy Education Board to grant recognition and include such qualifications as per sub- regulation (1) of regulation 3.
- (4) In case, if the deficiencies are found then an opportunity to rectify such deficiency shall be given to the appelland and if the appelland fails to rectify such deficiency, the appeal shall be rejected and order with the reasons shall be communicated to the appelland.
- (5) In case of refusal of grant of recognition of medical qualification by the Commission or the Commission fails to decide the appeal within a period of two months, the appelland may prefer second appeal to the Central Government addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Ayush within a period of thirty days from the date of communication of the order under sub-section (4) or lapse of the said period of two months.
- (6) The Central Government shall examine such appeal as per the eligibility criteria as specified in sub- regulation (1) of regulation 4 and if the Central Government decides that recognition may be granted to such medical qualification, the Central Government may direct the Commission to grant recognition and include such qualifications as per sub- regulation (1) of regulation 3.
- (7) If the Central Government decides that recognition may not be granted to such medical qualification, the Central Government may reject and dispose such appeal:

Provided that before rejecting such appeal, if the deficiencies are found then an opportunity to rectify such deficiencies shall be given to the appelland and if the appelland fails to rectify such deficiency, the appeal shall be rejected and order with the reasons shall be communicated to the appelland.

**6. Recognition of medical qualifications of Homoeopathy awarded by medical institutions outside India.**— (1) The Board shall list and maintain all qualifications recognised and included in the Third Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) as per Annexure- IX and the list shall be displayed on Commission's web portal.

- (2) The Board shall list and maintain all medical qualifications as specified in Annexure- VIII and these medical qualifications shall be recognised as medical qualifications for the purposes of the Act.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President, Homoeopathy Education Board

[ADVT.-III/4/Exty./287/2023-24]

#### Annexure –I

(see sub-regulation (1) of regulation 3 and sub-regulation (1) of regulation 4)

As per the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course-Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S) Regulations, 2022 and Post Graduate regulation of *erstwhile* Central Council of Homoeopathy “*Homoeopathy Central Council* (Post graduate Degree Course) regulation, 1989 the Nomenclature of undergraduate degree and postgraduate degree shall be as under, namely: -

Sl. No.	Nomenclature of Course	Duration	Abbreviation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	B.H.M.S. (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery)	5 ½ Year	B.H.M.S
2.	M.D. (Hom.) (Doctor of Medicine in Homoeopathy)	3 Year	M.D. (Hom.)
3.	All other such degree or diploma with their abbreviations as per Second and Third Schedule of the Central Council of Homoeopathy Act,1973	--	--



**Annexure-II  
(State Code)**

(see sub-regulation (1) of regulation 3)

Sl. No.	State or Union territory	Abbreviation	Sl. No.	State or Union territory	Abbreviation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Andhra Pradesh	AP	20.	Orissa	OI
2.	Arunachal Pradesh	ANP	21.	Punjab	PN
3.	Assam	AS	22.	Rajasthan	RJ
4.	Bihar	BH	23.	Sikkim	SK
5.	Chhattisgarh	CH	24.	Tamil Nadu	TN
6.	Goa	GA	25.	Tripura	TR
7.	Gujarat	GJ	26.	Uttarakhand	UT
8.	Haryana	HR	27.	Uttar Pradesh	UP
9.	Himachal Pradesh	HM	28.	West Bengal	WS
10.	Telangana	TL	29.	Andaman and Nicobar Islands	AN
11.	Jharkhand	JA	30.	Chandigarh	CD
12.	Karnataka	KR	31.	Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu	DD
13.	Kerala	KL	32.	Delhi	DL
14.	Madhya Pradesh	MD	33.	Lakshadweep	LD
15.	Maharashtra	MH	34.	Puducherry	PY
16.	Manipur	MN	35.	Ladakh	LL
17.	Meghalaya	MG	36.	Jammu and Kashmir	JK
18.	Mizoram	MZ			
19.	Nagaland	NL			

**Annexure- III  
(University code)**

(see sub-regulation (1) of regulation 3)

Sl. No.	State	Name of University	University ID
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ANDHRA PRADESH	NTR University of Health Sciences, Vijayawada.	(AP-01)
2.	ARUNACHAL PRADESH	Rajiv Gandhi University, Rono Hills, Doimukh Itanagar	(ANP-01)
3.	ASSAM	Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Guwahati	(AS-01)
4.	BIHAR	Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur	(BH-01)
5.	CHHATISGARH	Guru Ghasidas University	(CH-01)
6.	CHHATISGARH	Pt. Deendayal Upadhyay Memo. Health Sciences and AYUSH University, Raipur C.G.	(CH-02)
7.	CHANDIGARH	Guru Ravidas Ayurved University, Hoshiarpur	(CD-01)
8.	DELHI	University of Delhi, Delhi	(DL-01)
9.	DELHI	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi	(DL-02)
10.	GOA	Goa University, Teleigao Plateau, Goa	(GA-01)

11.	GUJARAT	Swarnim startup and Innovation University	(GJ-01)
12.	GUJARAT	Hemchandracharya North Gujarat, University Patan Gujarat	(GJ-02)
13.	GUJARAT	Saurashtra University, Rajkot	(GJ-03)
14.	GUJARAT	Sardar Patel University, V.V.Nagar	(GJ-04)
15.	GUJARAT	Parul University, Vadodara (Constituent College)	(GJ-05)
16.	GUJARAT	Maharaja Krishna kumarsinhji Bhavnagar University, Bhavnagar	(GJ-06)
17.	GUJARAT	Veer Narmad South Gujarat University, Surat	(GJ-07)
18.	GUJARAT	Sankalchand Patel University	(GJ-08)
19.	GUJARAT	Gujarat University Ahmedabad	(GJ-09)
20.	GUJARAT	Shri Govind Guru University, Godhra	(GJ-10)
21.	GUJARAT	Bhakta Kavi Narsinh Mehta University	(GJ-11)
22.	GUJARAT	P.P. Savani University	(GJ-12)
23.	GUJARAT	Sumandeep Vidyapeeth University	(GJ-13)
24.	HARYANA	Shri krishna Ayush Univesity, Kurukshetra, Haryana	(HR-01)
25.	HIMACHAL PRADESH	Himachal Pradesh University, Shimla	(HM-01)
26.	JHARKHAND	Vinoba Bhawe University, Hazaribagh	(JA-01)
27.	JHARKHAND	YBN University	(JA-02)
28.	JHARKHAND	Nilamber Pitamber University ( 2010-11 ) Vinoba Bhave University, Hazaribagh	(JA-03)
29.	KARNATAKA	Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru	(KR-01)
30.	KARNATAKA	KLE University, JMNC Campus, Nehru Nagar, Belagavi, (Deemed to be) Constituent College)	(KR-02)
31.	KARNATAKA	Yenepoya University, Mangaluru (Constituent College)	(KR-03)
32.	KERALA	Kerala University of Health and allied Sciences, Medical College P. O., Thrissur-680596	(KL-01)
33.	MADHYA PRADESH	Madhya Pradesh Medical Science, University, Jabalpur	(MD-01)
34.	MADHYA PRADESH	Sarvepalliradha Krishnan University Bhopal	(MD-02)
35.	MADHYA PRADESH	Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore	(MD-03)
36.	MADHYA PRADESH	Sri Satya Sai University of technology and Medical Sciences	(MD-04)
37.	MADHYA PRADESH	RKDF University, Bhopal	(MD-05)
38.	MADHYA PRADESH	Dr Hari Singh Gaur University, Sagar	(MD-06)
39.	MADHYA PRADESH	Sardar Patel University Balaghat	(MD-07)
40.	MAHARASHTRA	Maharashtra University of Health Sciences, Nashik	(MH-01)
41.	MAHARASHTRA	Bharati Vidyapeeth University, Pune	(MH-02)
42.	MAHARASHTRA	Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, (Deemed to be University) Sant Tukaram Nagar Pimpri, Pune-411018.	(MH-03)
43.	MEGHALAYA	North Eastern Hill University (NEHU), Shillong	(MG-01)
44.	ODISHA	Utkal University Bhubaneswar	(OI-01)
45.	ODISHA	Berhampur University	(OI-02)
46.	ODISHA	Sambalpur University	(OI-03)
47.	PUNJAB	Guru Ravidas Ayurved University , Punjab	(CD-01)
48.	RAJASTHAN	Dr. Sarvepelli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	(RJ-01)
49.	RAJASTHAN	Tantia University	(RJ-02)
50.	RAJASTHAN	Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed to be University)	(RJ-03)
51.	RAJASTHAN	Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, (Constituent Faculty)	(RJ-04)
52.	RAJASTHAN	Madhav University	(RJ-05)

		(Constituent Faculty)	
53.	RAJASTHAN	Constituent College of Homoeopathy University, Jaipur	(RJ-06)
54.	TAMIL NADU	Dr. M.G.R. Medical University, Chennai.	(TN-01)
55.	TAMIL NADU	Vinayaka Missions Research Foundation – Deemed To Be University	(TN-02)
56.	TELANGANA	Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences, Nizampura, Warangal, Telangana.	(TL-01)
57.	UTTARAKHAND	Uttarakhand Ayurved University, Dehradun	(UT-01)
58.	UTTARAKHAND	Kumaun University, Nainital	(UT-02)
59.	UTTAR PRADESH	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	(UP-01)
60.	UTTAR PRADESH	Mahayogi Guru Gorakhnath AYUSH University, Uttar Pradesh	(UP-02)
61.	WEST BENGAL	The West Bengal University of Health Sciences, Kolkata	(WS-01)

**Annexure- IV****(Medical Institution Code)**

(see sub-regulation (1) of regulation 3)

Sl. No.	Name of the medical institution	State	Medical institution ID
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	A.S.R. Homoeopathic Medical College, Y -Junction,,Prathipadu, Tadepalligudem, West	ANDHRA PRADESH	(01-01)
2.	Dr. Allu Ramalingaiah Govt. Homoeopathic Medical College, 26-1-11, Y-Junction, Rajamahendravaram,	ANDHRA PRADESH	(01-02)
3.	Dr. Gururaju Govt. Homoeopathic Medical College, Gudivada, Krishna Distt.- 521 301.	ANDHRA PRADESH	(01-03)
4.	Govt. Homoeopathic Medical College, Rama Raju Palli, Ravindra Nagar Post, Kadapa, Cuddapah, Andhra Pradesh, 516003.	ANDHRA PRADESH	(01-04)
5.	KKC Homoeopathic Medical College, 1-52, KKC Nagar, Parameswara Mangalam, Chittoor- 517584.	ANDHRA PRADESH	(01-05)
6.	Maharajaha Institute of Homoeopathy Sciences and Hospital, D.NO: 31-15,, Nellimarla Near M.D.O. Office, Nellimarla, Vizianagaram-535217.	ANDHRA PRADESH	(01-06)
7.	Sri Adi Shiva Satguru Ali Saheb Shivaaryula Homoeopathic Medical College, Thimmapuram, NH- 63, , Near Anjineyaswamy Temple, Guntakal, Anantapur- 515801.	ANDHRA PRADESH	(01-07)
8.	North East Homoeopathic Medical College and Hospital, Vivek Vihar, Itanagar, PapumPare, 791113.	ARUNACHAL PRADESH	(02-01)
9.	Assam Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, Mull Singh Road, Lakhinagar P.O. Haibergaon, Dist. Nagaon-782 002.	ASSAM	(03-01)
10.	Dr. J. K. Saikia Govt. Homoeopathic Medical College, Near Gymkhana Club Road, Distt- Jorhat-785008.	ASSAM	(03-02)
11.	Swahid Jadav Nath Govt. Homoeopathic Medical College, Vill. Bagharbari, P.O. Khanapara, Guwahati- 781037.	ASSAM	(03-03)
12.	B.N.M. Homoeopathic Medical Hospital, Saharsa-852 201.	BIHAR	(04-01)
13.	K.N.H Homoeopathic. Medical College and Hospital, Mayaganj, Bhagalpur-812001.	BIHAR	(04-02)
14.	Magadh Homoeopathic Medical College, Biharsarif, Station Road, Nalanda-803101.	BIHAR	(04-03)
15.	G.D. Memorial Homoeopathic Medical College and Hospital, East Ram Krishna Nagar, P.O. Jaganpura Patna -800 027.	BIHAR	(04-04)
16.	Dr. Rambalak Singh Gaya Homoeopathic Medical	BIHAR	(04-05)

	College and Hospital, Amwa, Bodh Gaya- 824231, Gaya.		
17.	Dr. Yadubir Singh Sinha Homoeopathic Medical College and Hospital, Laharisarai, Darbhanga- 846002.	BIHAR	(04-06)
18.	Mangla Kamla Homoeopathic Medical College and Hospital, Prof. Vishnu Kumar Marg, Srinagar, Siwan- 841226.	BIHAR	(04-07)
19.	R.D. Kedia Homoeopathic Medical College and Hospital, post office Hanuman Sugar Mills Bariyapur, Motihari, East Champaran-841226,	BIHAR	(04-08)
20.	The Temple of Hahnemann Homoeopathic Medical College and Hospital, Opposite Post Office, Bhagat Singh Chowk, Munger- 811201.	BIHAR	(04-09)
21.	R.B.T.S. Govt. Homoeopathic Medical College, Ram Dayalu Nagar, P.O. Ramna, Muzaffarpur- 842 002.	BIHAR	(04-10)
22.	Dr. Halim Homoeopathic Medical College and Hospital, Ekmighat, P.O. Laheria Sarai- 846001.	BIHAR	(04-11)
23.	Kent Homeopathic Medical College and Hospital Khilwat, Hajipur Vaishali - 844101.	BIHAR	(04-12)
24.	Maharshi Menhi Homoeopathic Medical College and Hospital, Jeewachh Nagar, Katihar-854105.	BIHAR	(04-13)
25.	Muzaffarpur Homoeopathic Medical College, Raghu Nath Pandey Nagar, MIC Bela, Muzaffarpur-842005.	BIHAR	(04-14)
26.	Patna Homoeopathic Medical College and Hospital, Ram Krishan Nagar, (Sorangpur), Patna-800027.	BIHAR	(04-15)
27.	ChhadamilalChouksey (C.L.) Homoeopathic Medical College and Hospital, Lal KhadanMasturi Road, Bilaspur- 495001.	CHHATISGARH	(05-01)
28.	Maharana Pratap Homoeopathic Medical College, Near Rishabh Enclave, Imlidih, New Rajendra Nagar, Raipur-001.	CHHATISGARH	(05-02)
29.	Raipur Homoeopathic Medical College and Hospital, Ram Kund, Chaube Colony, Raipur- 492 001.	CHHATISGARH	(05-03)
30.	Homoeopathic Medical College and Hospital, M-671, Sector 26, U.T. Chandigarh - 160 019.	CHANDIGARH	(06-01)
31.	Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital, B-Block, Defence Colony, New Delhi-110024.	DELHI	(07-01)
32.	Dr. B.R. Sur Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Nanakpura Gurudwara (Ring Road), Moti Bagh-II, New Delhi-110 021.	DELHI	(07-02)
33.	Kamaxi Devi Homoeopathic Medical College, Hill Top, Shiroda, Goa-403103.	GOA	(08-01)
34.	Aarihant Homoeopathic Medical College and Research Institute, At Bhoya Rathod, Opp. Iffco Adalaj-Sertha Road, Gandhinagar-382420.	GUJARAT	(09-01)
35.	Laxmiben Homoeopathy Institute and Research Centre, Lalji Park, Unjha-Mehsana Highway, At and PO-Bhandu-384120, Ta-Visanagar, Distt. Mehsana, (North Gujarat).	GUJARAT	(09-02)
36.	Shree Limbdi Vikas Trust Homoeopathic Medical College, Limbdi– Dhanuka State Highway, District Surendra Nagar Limbdi - 363421.	GUJARAT	(09-03)
37.	Anand Homoeopathic Medical College and Research Institute, Near OSardar Baug, Bhalej Road, Anand- 001. Dist. Kheda.	GUJARAT	(09-04)
38.	Baroda Homoeopathic Medical College, Near Sonar Kui, Opp. Xavier Technical Institute, Sevasi-Sindhrot Road, Sevasi, Vadodara-391101.	GUJARAT	(09-05)
39.	Dr. V.H. Dave Homoeopathic Medical College and	GUJARAT	(09-06)

	Smt. S.I. Patel (Ipcowala) Homoeopathic Hospital, Hahnemann House, Amul Dairy Road, Anand - 001, Dist. Kheda.		
40.	Jawaharlal Nehru Homoeopathic Medical College, C/o Parul Educational Complex, Post- Limbda, Tal- Waghodia, Dist.- Vadodara-391760.	GUJARAT	(09-07)
41.	Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, Dethali, Ta. Sidhdhpur, Dist. Patan (North Gujarat)- 384151.	GUJARAT	(09-08)
42.	Sh. H. N. Shukla Homoeopathic Medical College and Hospital, Sh. H. N. Shukla College Campus, Nr. Lalpari Lake, Bh. Marketing Yard, Amargadh-Bhichri, Rajkot (by Shree Mahatama Gandhi Education Trust, Rajkot, Gujarat).	GUJARAT	(09-09)
43.	Swami Vivekanand Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Sports Complex, Sidsar Road, Bhavnagar- 364 060.	GUJARAT	(09-10)
44.	Vidhyadeep Homoeopathic Medical College and Research Center (GJ035) Anita (Kim), Surat, Gujrat.	GUJARAT	(09-11)
45.	Arrdektta Homoeopathic Medical College and Hoapital, PO- Navi Metral, distt. Sabarkantha.	GUJARAT	(09-12)
46.	Samarpan Charitable and Educational Medical & Research Trust's Shri BachubhaiAlabhai Danger Homoeopathic Medical College, Opp. I.O.C. Depot, Jamnagar Road, Rajkot-360007.	GUJARAT	(09-13)
47.	Ahmedabad Homoeopathic Medical College, At & PO. Ghuma- Bopal Road, Ghuma, Ahmedabad.-380058.	GUJARAT	(09-14)
48.	Rajkot Homoeopathic Medical College, Jainath Petrol Pump, Gondal Road, Rajkot- 360 002.	GUJARAT	(09-15)
49.	Aarya-Veer Homoeopathic Medical College, at Kuvadva, Kuvada-Sardar Road, Rajkot- Ahmedabad NH, District- Rajkot-360 030.	GUJARAT	(09-16)
50.	Agarwal Education Foundation, S.S. Agarwal Homoeopathic Medical College at Near Devina Park Society, Viranjali Marg, GandeviRaod, Navsari-396445.	GUJARAT	(09-17)
51.	Ananya College of Homoeopathic, KIRC Campus, Ahmedabad-Mahesana Highway, Kalol, Dist. Gandhinagar- 382721.	GUJARAT	(09-18)
52.	Bhargva Homoeopathic Medical College, Vidyagram, At and Post-Dahemi, Ta-Borsad, Dist. Anand-388560.	GUJARAT	(09-19)
53.	C.D. Pachchigar Homoeopathic Medical College, Near Anand Mangal Society, Bhatar Road, Majura, Surat- 395001.	GUJARAT	(09-20)
54.	Gujarat Homoeopathic Medical College At and P.O.Savli- 91770, Dist.Vadodara.	GUJARAT	(09-21)
55.	Gyan Jyot Education Trust B.G. Garaiya Homoeopathy Medical College, At Kalipat Nr. Tramba, Bhavnagar Highway, Rajkot-360 020.	GUJARAT	(09-22)
56.	Jay Jalaram Homoeopathic Medical College, At and Post Morva (Rena), TakulaShahera, Distt. Panchmahal- 389001.	GUJARAT	(09-23)
57.	Kamdar Homoeopathy Medical College and Research Centre, Haripar Pal Survery No.12, Behind NRI Bungalows, Opp. Delhi Public School, Kalawad Road, Rajkot-360007.	GUJARAT	(09-24)
58.	Merchant Homoeopathic Medical College, Merchant Education Campus, Mehsana- Visnagar Highway, At. Gadha and P.O. Basna, Mehsana-384 315.	GUJARAT	(09-25)
59.	P.P. Savani Homoeopathy Medical College and	GUJARAT	(09-26)

	Hospital, NH- 8, GETCO, Near Biltech Company, Vill-Dhamdod, Kosamaba, Dist. Surat -394125.		
60.	Parul Institute of Homoeopathy and Research, P.O.- Limda, Tal. Waghodia, Dist. Vadodara- 391760.	GUJARAT	(09-27)
61.	Pioneer Homoeopathic Medical College, Pioneer Medical Campus, Near American School of Baroda, AT and P.O. Sayajipura Village, Near National Highway No:-8, Ajwa Cross Road, Vadodara.	GUJARAT	(09-28)
62.	Shree Chotalal Nagindas Kothari Homoeopathic Medical College and Research Centre, Near Van Chetna, Kakrapar Bye Pass, Tadkuva, Vyara, Dist. Surat-394 650.	GUJARAT	(09-29)
63.	Shree Mahalaxmi Mahila Homoeopathic Medical College, (Shree Shamlaji Arogya Seva Trust), Beside Gujarat Tractors Nr. Vishwamitri Bridge, MunjanaludaLalbag Road, Vadodara- 390011.	GUJARAT	(09-30)
64.	Shree Swaminarayan Homoeopathy College Shree Swaminarayan Vishwa Mangal Gurukul Trust, Nr. Ahmedabad-Mehsana National Highway, At and PO- Saij, Kalol, Dist. Gandhinagar-382721.	GUJARAT	(09-31)
65.	Shri Shamlaji Homoeopathic Medical College and Research Institute, Godhra, Near Moon Light Cinema, Godhra-389 001.	GUJARAT	(09-32)
66.	Shri Vivek Bharti Trust, Noble Homoeopathic College and Research Institute-Junagadh, "Parth Vatika, Bhesan Road, Via-Vadal, At. Bamangam- 362310, Ta & Dist.	GUJARAT	(09-33)
67.	Valan Homoeopathic Medical College and Hospital, Valan- Palej Road, At P. O. Valan, TA. Karjan Dist.Vadodara.392310	GUJARAT	(09-34)
68.	Shree Sardar Patel Mahila Homoeopathic Medical College, Morbi Road, Hadala, Rajkot- 360003	GUJARAT	(09-35)
69.	Sumandeep Homoeopathic Medical College and Hospital, At and Post-Piparia, Talnka-Waghodia,Dist- Vododara, Gujarat-391760	GUJARAT	(09-36)
70.	Shri N.M. Patel Homoeopathic Medical College, Post- Salawada, Tal. Unawada, Dist-Mahisagar, Gujarat.388270	GUJARAT	(09-37)
71.	Nootan Homoeopathic Medical College, NootanSarvaVidyalayaKellarani Mandal, Sankalchand Patel Vidyadham Ambaji Gandhi Nagar Star Highway Visnagar-384315	GUJARAT	(09-38)
72.	Smt. A.J. Savla Homoeopathic Medical College and Research Institute, Pushpanjali 'Building' Near Jilla Panchayat, Nr. Karve School, Visnagar Road, Mehsana- 384001.	GUJARAT	(09-39)
73.	Smt. Malini Kishore Sanghavi Homoeopathic Medical College at Miyagaon, Tal. Karjan, Dist. Vadodara-391240.	GUJARAT	(09-40)
74.	Smt. T.V. Mehta Charitable Foundation, LalibenRamniklal Shah Homoeopathic Medical College, Gardi Vidyapith Campus, Opp. Shiv Shakti Hotel, Kalawad Highway, Village Anandpar-361162, Rajkot.	GUJARAT	(09-41)
75.	Smt. Vasantaben N. Vyas Homoeopathic Medical College and Hospital, SR No.873/2 Jeshingpara, Amreli- 365 601.	GUJARAT	(09-42)
76.	Gandhinagar Homoeopathic Medical College, Mubarakpur (Pearl Education Charitable Trust),	GUJARAT	(09-43)

	Ahmadabad-392721.		
77.	J.R. Kissan Homoeopathic Medical College and Hospital, Old Sunderpur Road, Jind Bye Pass, Rohtak – 124 001.	HARYANA	(10-01)
78.	Solan Homoeopathic Medical College and Hospital, Barog Bye-pass, (Near Shoolini Filling Station), Kumarahatti - 173229	HIMACHAL PRADESH	(11-01)
79.	Arogyam Homoeopathic Medical College and Hospital , Vill – Jhaluwa, PO Kalyanpur, Garhwa -822114.	JHARKHAND	(12-01)
80.	Maa Kalawati Homoeopathic Medical College and Hospital, Rajaulatu, Namkum, Ranchi-834010.	JHARKHAND	(12-02)
81.	State Homoeopathic Medical College, ParaspaniGodda -814147	JHARKHAND	(12-03)
82.	Devki Mahaveer Homoeopathic Medical College and Research Hospital at Farathiya, Garhwa-822114.	JHARKHAND	(12-04)
83.	Singhbhum Homoeopathic Medical College and Hospital, Jamtara, Jharkhand, 292999	JHARKHAND	(12-05)
84.	The Homoeopathic College and Hospital of Mihijam, PO Mihijam, Distt. Jamtara 815354	JHARKHAND	(12-06)
85.	Bhartesh Homoeopathic Medical College, B.C.- 188, Old P. B. Road Dharwar, Belgaum-590 016.	KARNATAKA	(13-01)
86.	AGM Homoeopathic Medical College and Hospital, Navagrha Teerth Kshetra, Varur Hubballi - 581207.	KARNATAKA	(13-02)
87.	KLE University's Homoeopathic Medical College and Hospital, Yellur Road, Belagavi - 59005.	KARNATAKA	(13-03)
88.	Shetty Homoeopathic Medical College and Hospital, Shetty Education hub, Shahabad road, Kalburagi – 585105.	KARNATAKA	(13-04)
89.	Yenopoya Homoeopathic Medical College and Hospital, R.S. No.29,30,31, Naringana Village, Post-Deralakatte (Mangalore),Tah. Bantwal, Distt. Dikshin Kannada-575018.	KARNATAKA	(13-05)
90.	The Holy Family Education Society, Rosy Royal Homoeopathic Medical College and Hospital, Vill-Mallapura, Nelamangala, Bangalore-562162.	KARNATAKA	(13-06)
91.	S.B. Shirkoli Homoeopathic Medical College, Anant Vidya Nagar, P.B. No.16, Sankeshwar- 591 313, Distt. Belgaum.	KARNATAKA	(13-07)
92.	A.M. Shaikh Homoeopathic Medical College, Nehru Nagar, Belgaum-590 010.	KARNATAKA	(13-08)
93.	Dr. B.D. Jatti Homoeopathic Medical College and Hospital, D.C. Compound, Dharwad-580001.	KARNATAKA	(13-09)
94.	Dr. Maalakaraddy Homoeopathic Medical College and Hospital, MahadevappaRampure Marg, Sedam Road, Kalaburagi-585 105.	KARNATAKA	(13-10)
95.	Father Muller Homoeopathic Medical College and Hospital, University Road, Deralakatte, Mangalore-574160.	KARNATAKA	(13-11)
96.	Govt. Homoeopathic Medical College, Dr. SiddaiahPuranik Road, (Near Govt. Medical Stores) Basaveshwara-Nagar, Bangalore-560 079.	KARNATAKA	(13-12)
97.	Alvas Homoeopathic Medical College, Shobhavana Campus, NH-13, MijarMoodbidri -574225.	KARNATAKA	(13-13)
98.	Anuradha Homoeopathic Medical College and Hospital SY. No.78/5 (Old SY.No.78/1), Srigandrakaval.	KARNATAKA	(13-14)
99.	Bhagwan Buddha Homoeopathic Medical College and Hospital, 'Srinidhi Complex' Mallathalli,Bangalore-	KARNATAKA	(13-15)

	056.		
100.	BVV Sangha BVVS Homoeopathic Medical College and Hospital, BVVS Old Campus, Belgavi-Raichur Road, Bagalkot 587101.	KARNATAKA	(13-16)
101.	S.C.S.E. Society's. Shiv Basav Jyoti Homoeopathic Medical College, R.S. No.43/2A, Plot No.8, Indal Road, Azam Nagar,Belgaum - 590010.	KARNATAKA	(13-17)
102.	Sri Basaveshwar Rural Education and Development Trust Sri Sathya Sai College of Homoeopathic Medical Sciences, Plot No. 19 'C', Industrial Area, Sattur, Dharwad-580009.	KARNATAKA	(13-18)
103.	SVE Trust's Veerabhadreswar Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Sai Baba Temple, Humnabad(Post &Tq) Dist. Bidar- 585330 .	KARNATAKA	(13-19)
104.	Govt. Homoeopathic Medical College, Irnamuttam, P.O. Manacaud, Thiruvananthapuram-695009.	KERALA	(14-01)
105.	Govt. Homoeopathic Medical College, Karaparamba,Kozhikode Dist. -673 010.	KERALA	(14-02)
106.	National Homoeopathy Research Institute in Mental health, (NHRIMH) at CRI(H), Sachivothampuram P.O., Kottayam-686532	KERALA	(14-03)
107.	Athurasramam N.S.S. Homoeopathic Medical College, Sachivothampuram, P.O. Kuricy, Distt.-Kottayam-686532.	KERALA	(14-04)
108.	Dr. Padiar Memorial Homoeopathic Medical College, Chottanikkara, Ernakulam-682312.	KERALA	(14-05)
109.	Shree Vidyadhiraja Homoeopathic Medical College, Nemom, Thiruvananthapuram- 695020.	KERALA	(14-06)
110.	Swami Pranavanand Homoeopathic Medical College and Hospital, Near Police Line Road, Chhatarpur-471001.	MADHYA PRADESH	(15-01)
111.	District Homoeopathic Medical College and Hospital, 478, Katju Nagar, Ratlam – 457 001.	MADHYA PRADESH	(15-02)
112.	R.K.D.F. Homoeopathic Medical College and Hospital, Research Centre, Mile Stone 12, Hoshangabad Road, Bhopal-462046.	MADHYA PRADESH	(15-03)
113.	Sophia Homoeopathic Medical College (Swastik Educational and Social Welfare Society's), Mahal Gaon, Opp. R.I. Training Institute, City Centre, Gwalior 474 002.	MADHYA PRADESH	(15-04)
114.	Anushree Homoeopathic Medical College,112, Near Samdariya Green City ,Kashodhan Nagar, Madhotal, Jabalpur 482 002.	MADHYA PRADESH	(15-05)
115.	H.K.E. Society's Narayan Shree Homoeopathic Medical College, Clinical and Research Centre, Pushpa Nagar, Near Bhopal Railway Station, Bhopal- 462 010.	MADHYA PRADESH	(15-06)
116.	Hahnemann Homoeopathic Medical College, New Jail By- Pass `Road, Karond, Bhopal-462 038.	MADHYA PRADESH	(15-07)
117.	Mahatma Gandhi Homoeopathic Medical College and Hospital, Neemkheda, Gour Tiraha, (Mandla Road) Opp. Marble Rock School, Jabalpur-482001.	MADHYA PRADESH	(15-08)
118.	Om Charitable Chikitsa Samiti's K.S. Homoeopathic Medical College, Village, Piproli, Chirwai Naka, Lashkar, Gwalior-474001.	MADHYA PRADESH	(15-09)
119.	R. N. Kapoor Homoeopathic Medical College, Indore-Dewas Bypass Road, A P J Abdul Kalam Vill - Arandia, Indore-452016.	MADHYA PRADESH	(15-10)
120.	Rani Dullaiya Smriti Homoeopathy College and Hospital, Barkhedhi Kalan, Bhadbhada Road, Bhopal-	MADHYA PRADESH	(15-11)



	462044.		
121.	Shri Gujarati Samaj Shrimati Kamlaben Raoji Bhai Patel Gujarati Homoeopathic Medical College Hospital and Research Centre, Sch.No.54A.B. Road.	MADHYA PRADESH	(15-12)
122.	Indira Gandhi Memorial Homoeopathic Medical College, 131, Prakash Nagar, Dhar-454001.	MADHYA PRADESH	(15-13)
123.	Lal Bahadur Shastri (L.B.S.) Homoeopathic Medical College, SamardaKaliasaut, Ratanpur, Mandideep Road, Bhopal – 462026.	MADHYA PRADESH	(15-14)
124.	School of Homoeopathy, Sri Satya Sai University of Technology and Medical Sciences, SH-18, Bhopal-Indore Road, Opposite Oilfed Plant, Pachama, District Sehore, Sehore-466001.	MADHYA PRADESH	(15-15)
125.	Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, MACT `HILLS, AYUSH Campus, Beside Kaliasot Dam, Chuna Bhatti, Bhopal-462003.	MADHYA PRADESH	(15-16)
126.	Ram Krishna College of Homoeopathy and Medical Sciences, RKDF, University Campus, Nr. Airport Bypass Road, Gandhi Nagar, Bhopal-462033.	MADHYA PRADESH	(15-17)
127.	Sendhwa Homoeopathic Medical College and Hospital, Dist. Barwani, Sendhwa- 451666.	MADHYA PRADESH	(15-18)
128.	Shivang Homoeopathic Medical College and Hospital, Bairagarh Chichi, Nayapura, Kolar Road, Bhopal-462042.	MADHYA PRADESH	(15-19)
129.	Aarihant Homoeopathic Medical College at Sendhwa Distt. Barbani-45166, MP	MADHYA PRADESH	(15-20)
130.	Sagar Homoeopathic Medical College and Hospital Research Centre, Namak Mandi, Sagar- 470 002	MADHYA PRADESH	(15-21)
131.	Sheetla Sahai Homoeopathy Medical College and Research Institute Cancer Hospital, Gwalior, M.P.	MADHYA PRADESH	(15-22)
132.	Shri Ramnath Singh SikshaPrasar Samiti Homoeopathic Medical College, Gormi, Bhind-477660.	MADHYA PRADESH	(15-23)
133.	Smt. S.M. Deo Homoeopathic Medical College and Hospital, Sardar Patel Campus Gaykhuri, Balaghat, Distt. Balaghat –481 001.	MADHYA PRADESH	(15-24)
134.	Vasundhara Raje Homoeopathic Medical College and Hospital, Mahadji Nagar, Shivpuri, Link Road, Gwalior-474 001.	MADHYA PRADESH	(15-25)
135.	Ratnadeep Medical Foundation and Research Centre, Jamkhed Homoeopathic Medical College,Ratnapur, Tal. Jamkhed.	MAHARASHTRA	(16-01)
136.	Dhondumama Sathe (D.S.) Homoeopathic Medical College, F.P.No.23, Off Karve Road, Pune-411004.	MAHARASHTRA	(16-02)
137.	Dr. D.Y. Patil Homoeopathic Medical College, Pimpri, Dist. Pune-411018.	MAHARASHTRA	(16-03)
138.	Dr. G.D. Pol Foundations Yerala Homoeopathic Medical College and Research Centre, Institutional Area, Sector-4, Opp. Kharghar Railway Station, Kharghar, Navi Mumbai- 410210.	MAHARASHTRA	(16-04)
139.	Dr. J.J. Magdum Trust's Homoeopathic Medical College, Shirol Wadi Road, Jaysingpur, Tal. Shirol Dist. Kolhapur-416101, Maharashtra	MAHARASHTRA	(16-05)
140.	Kaka Saheb Mhaske Homoeopathic Medical College, Nagapur, M.I.D.C., Ahmednagar-414 111.	MAHARASHTRA	(16-06)
141.	Motiwala (National) Homoeopathic Medical College and Hospital, Motiwala Nagar, Gangapur Satpur Link Road, Via Nashik, H.P.O., Nashik-422 001.	MAHARASHTRA	(16-07)

142.	Prabhat Education Society's P.D. Jain Homoeopathic Medical College, Behind State Bank of Hyderabad, Vakil Colony, Parbhani-431 401.	MAHARASHTRA	(16-08)
143.	Nagpur College of Homoeopathy, Nagpur.	MAHARASHTRA	(16-09)
144.	Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Institute of Homoeopathic Medical Sciences, Badnera Road, Amravati-444605.	MAHARASHTRA	(16-10)
145.	Shri Janta Homoeopathic Medical College, Tawer, Jatharpeth Road, Kediya Plot's Akola-444 005.	MAHARASHTRA	(16-11)
146.	Mauli Homoeopathic College and Research Institute, Tondar, TQ Udgir, Dist. Latur -413517.	MAHARASHTRA	(16-12)
147.	Gondia Homoeopathic Medical College and Hospital, GHMC Campus, Surya Tola, Gondia- 441614.	MAHARASHTRA	(16-13)
148.	Govt. Homoeopathic Medical College, Chincholi, Jalgaon- 425002.	MAHARASHTRA	(16-14)
149.	K.E.S. Loknete Adv. Datta Patil Homoeopathic Medical College and Hospital, BalasahebKhardekar Road, Vengurla, Bhatawadi, Dist. Sindhudurg-416 516.	MAHARASHTRA	(16-15)
150.	Kisan Dnyanoday Mandal's Homoeopathic Medical College, Nimzari Road, Shirpur Dist. Dhule-425 405.	MAHARASHTRA	(16-16)
151.	M.H.F.'s Homoeopathic Medical College and Hospital, Hahnemann Hill, Pokhariphata, Gunjalwadi, Tal. Sangamner Distt. Ahmednagar-422 605.	MAHARASHTRA	(16-17)
152.	Matoshri AsarbaiDarade Homoeopathic College, Matoshri AsarbaiDarade Homoeopathic Medical college Babhulgaon , Tal-Yeola, Dist-Nashik	MAHARASHTRA	(16-18)
153.	OMAR Homoeopathic Medical College and Research Center, New Railway Station, Rajni, Tq. Gansawangi, Dist. Jalna,-425415	Maharashtra	(16-19)
154.	Shradha Homoeopathic Medical College Hospital and Research Center, Dist-Washim, Kondalazambre, Maharashtra- 443301	MAHARASHTRA	(16-20)
155.	Nootan Homoeopathic Medical College and Hospital, Gat No.412, Landgewadi, Tal. Kavathemahankal, Dist. Sangali- 416405.	MAHARASHTRA	(16-21)
156.	Purushottamdas Bagla Homoeopathic Medical College and Hospital, Pathanpura Marda Road, Arwat, Dist. Chandrapur-442402.	MAHARASHTRA	(16-22)
157.	Sayali Charitable Trust, College of Homoeopathy, Gut No. 141, 150, 55 Mitmita, Nashik Road, Aurangabad-431003.	MAHARASHTRA	(16-23)
158.	Shri Bhagwan Homoeopathic Medical College and Indira Gandhi Memorial Hospital, CIDCO N-6, Aurangabad -431003.	MAHARASHTRA	(16-24)
159.	Shri Takhatmal Shrivallabh Homoeopathic Medical College, Homoeo. Sadan, Rajapet, Amravati.-444606.	MAHARASHTRA	(16-25)
160.	Shri Tatyasaheb Ghatake Charitable Trust, R.R. Patil College of Homoeopathy and Hospital, Pune Baypass Road, Sangli-416416.	MAHARASHTRA	(16-26)
161.	Vidya Vaibhav Shikshan Mandal Dapoli Homoeopathic Medical College, At. Apati, P.O. Talsure, Taluka-Dapoli, Distt. Ratnagiri- 415 712.	MAHARASHTRA	(16-27)
162.	Disha Shikshan-V-Vikas Kendra's E.B. Gadkari Homoeopathic Medical College, 1830/A/B, Kadgaon Road, Opposite Govt. Rest House, Gadhinglaj, Dist. Kolhapur-416 502.	MAHARASHTRA	(16-28)
163.	Gandhi NathaRangaji Homoeopathic Medical College, 13, Budhawar Peth, Jain Boarding Campus, Balives,	MAHARASHTRA	(16-29)

Solapur- 413 002.			
164.	Bharati Vidyapeeth's Homoeopathic Medical College, Dhankawadi, Katraj, Pune-411043.	MAHARASHTRA	(16-30)
165.	Dakshin Kesari Muni Mishrilalji Homoeopathic Medical College, Behind Bibi Ka Makbara, Shree Guru Ganesh Nagar, Aurangabad-431 004.	MAHARASHTRA	(16-31)
166.	Dr. M.L. Dhawale Memorial Homoeopathic Institute, Opp. S.T. Workshop, Palghar Boisor Road, Palghar- 401 404 .	MAHARASHTRA	(16-32)
167.	Foster Development Homoeopathic Medical College, N-5, Behind Gulmohar Colony, CIDCO, Aurangabad-431003.	MAHARASHTRA	(16-33)
168.	Guru Mishri Homoeopathic Medical College and Hospital at Shelgaon, Tq. Badnapur, Dist. Jalna- 431 202.	MAHARASHTRA	(16-34)
169.	National Medical College of Homoeo. Science (Vamanraolthape Homoeopathic Medical College), New Nagar Road, Sangamner, Distt. Ahmednagar-422 605.	MAHARASHTRA	(16-35)
170.	Panchsheel Homoeopathic ShikshanPrasarak Mandal's Homoeopathic Medical College, Civil Lines, Kelanagar, Khamgaon-444 303, Dist. Buldana.	MAHARASHTRA	(16-36)
171.	PouraviShikshanPrasarak Mandal's Mahila Homoeopathic Medical College and Hospital, 283/1B, Kolgiri Nagar, Hotgi Road, Majrewadi, Solapur, Maharashtra.	MAHARASHTRA	(16-37)
172.	Ahmednagar Homoeopathic Medical College, Savedi Road, Ahmednagar-414 003.	MAHARASHTRA	(16-38)
173.	AnantraoKanse Homoeopathic Medical College Hospital, Alephata, Tal.Junnar, Distt. Pune- 412411.	MAHARASHTRA	(16-39)
174.	Antarbharti Homoeopathic Medical College ,Dabha, Nagpur 440 023.	MAHARASHTRA	(16-40)
175.	Atal Bihari Vajpayee Homoeopathic Medical College and Hospital, At-Jalke, Khadke, Tq. -Newasa, Dist. Ahmednagar.	MAHARASHTRA	(16-41)
176.	Shri Jagadguru Panchacharya Education Society's Homoeopathic Medical College, 200 E, Tararani Chowk, Kolhapur-416 003.	MAHARASHTRA	(16-42)
177.	BalirajaShikshanPrasarak Mandal's Padmashri Shyamraoji Kadam Homoeopathic Medical College, Hospital and Research Centre, CIDCO, New Nanded-431603.	MAHARASHTRA	(16-43)
178.	Dhanvantari Homoeopathic Medical College and Hospital and Research Centre, Dhanvantari Campus, Kamatwade, Opp. Abhiyanta Nagar, CIDCO, Nashik-422008.	MAHARASHTRA	(16-44)
179.	Godawari Foundation Dr. Ulhas Patil Homoeopathic Medical College, Godavari Hospital, M.J. College Road, Distt. Jalgaon-425001.	MAHARASHTRA	(16-45)
180.	Smt. KanchanbaiBabulalji (K..B.) Abad Homoeopathic Medical College, At and P.O. Neminagar, Chandwad, Dist. Nashik-423 101.	MAHARASHTRA	(16-46)
181.	SonajiraoKshirsagar Homoeopathic Medical College, Vidhya Nagar (W), College Road, Beed-431 122.	MAHARASHTRA	(16-47)
182.	Gulabrao Patil Homoeopathic Medical College,795, Gulabrao Patil Education Camps, Near Govt. Milk Dairy, Distt. Sangli, Miraj.	MAHARASHTRA	(16-48)
183.	Homoeopathic Medical College, Akot Road, Akola-444001.	MAHARASHTRA	(16-49)
184.	Janseva Mandal's Sai Homoeopathic Medical College,	MAHARASHTRA	(16-50)

	DugadPhata, Tal-Bhiwandi, Distt. Thane-421302 .		
185.	K.E.S.'s Chandrakant Hari Keluskar Homoeopathic Medical College, Alibag, Dist. Raigad-402 201.	MAHARASHTRA	(16-51)
186.	Konkan Education and Medical Trust's Virar Homoeopathic Medical College, Veer Savarkar Marg, Virar, Tal.Vasai, Dist. Thane-401305.	MAHARASHTRA	(16-52)
187.	Late Mrs. Housabai Homoeopathic Medial College and Hospital, Nimshirgaon-416101, Sangli-Kolhapur Road, Near Dharmnaga, Tal- Shirol, Distt. Kolhapur .	MAHARASHTRA	(16-53)
188.	Lokmanya Medical Foundation's Homoeopathic Medical College, Near Elpro Company, Behind Auditorium of P.C.M. Chinchwad, Pune-411 033.	MAHARASHTRA	(16-54)
189.	Mahalaxmi Homoeopathy Medical College, S. No.259 At. Post Raigaon, Tal.Jaoli, Distt. Satara-415020.	MAHARASHTRA	(16-55)
190.	Rashtrasant Janardan Swami Homoeopathic Medical college and Research Centre, Ahmednagar.	MAHARASHTRA	(16-56)
191.	Samarth Education Trust's Sawakar Homoeopathic Medical College, AM-1./1, Additional MIDC, Degaon Road, Satara.	MAHARASHTRA	(16-57)
192.	Sharadchandraji Pawar Homoeopathic Medical College and Hospital, At Shiva Trust Campus, Wadala-Mahadev Tq. Shiriram Distt. Ahmednagar-413739.	MAHARASHTRA	(16-58)
193.	Shri Chamundamata Homoeopathic Medical College and Hospital, 9, 10, 11 Gayatri Nagar Telephone and Parakh Nagar, Jilha Peth, Jalgaon- 425003.	MAHARASHTRA	(16-59)
194.	Smt. ChandabenMohanbhai Patel Homoeopathic Medical College, Irla,Natakkar R.G. Gadkari Marg,Vile, Parle (West), Mumbai- 400 056.	MAHARASHTRA	(16-60)
195.	SVVP Homoeopathic Medical College and Research Institute, B-101, Tulsi Arcade, Connought Place, CIDCO, Aurangabad- 431003, Hingoli.	MAHARASHTRA	(16-61)
196.	Vasantrao Kale Medical College and Hospital, P- 12, M.I.D.C. Kallam Road, Latur – 413 531.	MAHARASHTRA	(16-62)
197.	Venutai Yashwantrao Chavan Homoeopathic Medical College, 2968 "C", Dasara Chowk, Kolhapur -416002.	MAHARASHTRA	(16-63)
198.	North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Mawdiangdiang, Shillong-793018.	MEGHALAYA	(17-01)
199.	Cuttack Homoeopathic Medical College, Naya Bazar, Cuttack-753004.	ODISHA	(18-01)
200.	Dr. Abhin Chandra Homoeopathic Medical College and Hospital, Unit-III, Kharvela Nagar, Bhubaneswar, Distt. Puri. -751 001.	ODISHA	(18-02)
201.	Biju Pattnaik Homoeopathic Medical College, Berhampur- 760001 Ganjam.	ODISHA	(18-03)
202.	Mayurbhanj Homoeopathic Medical College and Hospital, At and P.O. Baripada, Distt. Mayurbhanj- 757029.	ODISHA	(18-04)
203.	Orissa Medical College of Homoeopathy and Research, Sambalpur-768 001.	ODISHA	(18-05)
204.	Manjari Devi Homoeopathic Medical College and Hospital, At-Puranapadhan ,Plot No-262, Post-Sisilo, Via Balakati , P.S-Balianta, Bhubaneswar, Dist-Khordha, Odisha-752100	ODISHA	(18-06)
205.	Utkalmani Homoeopathic Medical College and Hospital, Naya Bazar, Rourkela-769010.	ODISHA	(18-07)
206.	Homoeopathic Medical College, HanumangarhRoad,Near Bye Pass), Abohar-152 116.	PUNJAB	(19-01)

207.	Sri Gurunanak Dev Homoeopathic Medical College, Canal Road, Barewal, Near Punjab Agricultural University. Via Ayalikalan, Ludhiana-142027.	PUNJAB	(19-02)
208.	Kalyan Homoeopathic Medical College, Tarn- Taran Sahib PB004- Punjab	PUNJAB	(19-03)
209.	Lord Mahavira Homoeopathic Medical College, Dr. Hahnemann Chowk, Kitchlu Nagar, Civil Lines, Ludhiana- 141 001.	PUNJAB	(19-04)
210.	MangilalNirban Homoeopathic Medical College and Research Institute, M.N.S. Hospital and Research Center, Bikaner-334001.	RAJASTHAN	(20-01)
211.	Sri Ganganagar Homoeopathic Medical College, Hanumangarh Road, Sriganganagar- 335002.	RAJASTHAN	(20-02)
212.	Swasthya Kalyan Homoeopathic Medical College and Research Centre, Jai Villa, Narain Singh Road, Near Trimurti Circle, Jaipur-302004.	RAJASTHAN	(20-03)
213.	Bharatiya Homoeopathic Medical College and Hospital, NH-11, Agra- Fatehpur Sikri Road, Bhartpur – 320001, Rajasthan.	RAJASTHAN	(20-04)
214.	Aarogya Homoeopathic Medical College, P.No.104/1, Dhani Kagota Ki NailaKanota, Jamwaramgarh, Jaipur- 303012.	RAJASTHAN	(20-05)
215.	Rajasthan Vidyapeeth Homoeopathic Medical College, Vidyapeeth Campus, Dabok, Udaipur- 313 002.	RAJASTHAN	(20-06)
216.	Under Faculty of Homoeopathic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Vedaant Gyan Valley, Jharna, Mahala Jobber, Link Road, Jaipur- Ajmer Express Way , NH-8, Jaipur-303122 .	RAJASTHAN	(20-07)
217.	Madhav Homoeopathic Medical College and Hospital, Madhav Hills, Post-Bharja, Tehsil- Pindwara, Opp. Banas River Bridge Toll, NH- 27, Abu Road, Sirohi- 307026.	RAJASTHAN	(20-08)
218.	Dr. Madan Pratap Khuteta Homoeopathic Medical College, Homoeopathy Plot No.10-11 and 12, Village Saipura, Sanganer, Jaipur – 302029.	RAJASTHAN	(20-09)
219.	University College of Homoeopathy, Kekari, Ajmer- 305404 .	RAJASTHAN	(20-10)
220.	University College of Homoeopathy, Kadwad, Jodhpur	RAJASTHAN	(20-11)
221.	O. P. J. S. Homoeopathic Medical College, VPO-Rawat Sarkunjla, Near Sankhu Fort, Rajgarh, Sadulpur- Jhunjhunu Road, Churu-Rajastha-331303	RAJASTHAN	(20-12)
222.	Yuvraj Pratap Singh Memorial Homoeopathic Medical College, Shivaji Park, Alwar.- 301 001.	RAJASTHAN	(20-13)
223.	Martin Homoeopathic Medical College and Hospital, D.P.F. Mill Premises, G.N. Mills (P.O.), Mettupalayam Road, Coimbatore-641029.	TAMIL NADU	(21-01)
224.	Sri Sairam Homoeopathic Medical College and Research Centre, (Sapthagiri Education Trust), Sai Leo Nagar Tambaram West Chennai- 600044.	TAMIL NADU	(21-02)
225.	Venkateswara Homoeopathic Medical College and Hospital No. 4/11, Samayapuram Main Road, Karambakkam, Porur, Chennai-600 116.	TAMIL NADU	(21-03)
226.	Sarada Krishna Homoeopathy Medical College, Kulasekharam Distt. Kanyakumari-629161.	TAMIL NADU	(21-04)
227.	Vinayaka Mission's Homoeopathic Medical College, Chinnaseeragapadi, P.O. NH 47, Sankari Main Road, Salem- 636 308.	TAMIL NADU	(21-05)
228.	White Memorial Homoeopathic Medical College, Attoor, Veeyanoor-629 177.Dist. Kanyakumari.	TAMIL NADU	(21-06)
229.	Dr. Hahnemann Homoeopathy Medical College, and	TAMIL NADU	(21-07)

	Research Centre. Koneripatti, Rasipuram, NamakkalDist- 637408.		
230.	Excel Homoeopathy Medical College NH 544 Ranganoor Road, ,Sankari West Post, Pallakkapalayam, Komarapalayam, Namakkal- 637303.	TAMIL NADU	(21-08)
231.	Govt. Homoeopathic Medical College and Hospital, At. Thirumangalam, Dist. Madurai – 626 706.	TAMIL NADU	(21-09)
232.	Maria Educational and Charitable Trust, Chevaracode Kanyakumari's Maria Homoeopathic Medical College and Hospital, PeraiThiruvattar P.O., Kanyakumari Distt.,-629177.	TAMIL NADU	(21-10)
233.	R.V.S. Medical Trust Homoeopathic Medical College, 242 B, Trichy Road, Sulur, Coimbatore Distt.- 402.	TAMIL NADU	(21-11)
234.	Sivaraj Homoeopathic Medical College and Research Institute, SiddharKovil Road, Thumbathulipatty, Perumampathy (P.O.), Salem-636 307.	TAMIL NADU	(21-12)
235.	S.V.S. Medical College of Homoeopathy and Research Institute, Kallakurichi Villupuram District-606202.	TAMIL NADU	(21-13)
236.	Shri Barani Homoeopathic Medical College and Hospital, Tiruchengode, Namakkal.	TAMIL NADU	(21-14)
237.	J.S.P.S. Govt. Homoeopathic Medical College, Ramanathapur, Hyderabad-500 013.	TELANGANA	(22-01)
238.	JIMS Homoeopathic Medical College and Hospital, Sriramnagar, Muchintal Village, Palamakula P.O., Shamshabad Mandal, Ranga Reddy District-509325.	TELANGANA	(22-02)
239.	Devs Homoeopathic Medical College and Hospital, Devanagar, Ankireddyipalli, Kesara Mandal, R. R. District.--501301.	TELANGANA	(22-03)
240.	Guru nanak Homoeopathic Medical College and Hospital, Ibrahimpatnam, Ranareddy District, Hyderabad-501506	TELANGANA	(22-04)
241.	MNR Homoeopathic Medical College and Hospital, 2- 23B/350, Bhagyanagar Phase-III, Near HMT Hills Colony, Opp;JNTU, Kukatpally, Hyderabad-500085.	TELANGANA	(22-05)
242.	Shreyaan Ishaan Educational Society, Hamsa Homoeopathy Medical College, Hospital and Research Centre, Kasheersagar Village, Mulugu Mandal, Medak Distt.-502279.	TELANGANA	(22-06)
243.	Param Himalaya Homoeopathic Medical College and Research Centre, Khairi Road, Doiwala, Dehradun- 248140.	UTTARAKHAND	(23-01)
244.	Chandola Homoeopathic Medical College and Hospital, Kichcha Road, Ruderpur, P.O. Lalpur, Dist. Udhamsingh Nagar-263148. Nainital.	UTTARAKHAND	(23-02)
245.	National Homoeopathic Medical College and Hospital, 1, Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226001.	UTTAR PRADESH	(24-01)
246.	Bakson Homoeopathic Medical College, B-36, Knowledge Park, Phase-I, Greater NOIDA, Dist. Gautam Budha Nagar- 201 306.	UTTAR PRADESH	(24-02)
247.	Naiminath Homoeopathic Medical College, Hospital and Research Centre, Village Nawalpur, Tehsil Etmadpur, Agra.- 283206.	UTTAR PRADESH	(24-03)
248.	Pt. Jawaharlal Nehru State Homoeopathic Medical College and Hospital, Block A/1, Scheme-38, Lakhanpur, Kalyanpur, Kanpur- 208024.	UTTAR PRADESH	(24-04)
249.	State Lal Bahadur Shastri Homoeopathic Medical College and Hospital, Phaphamau, Allahabad -02	UTTAR PRADESH	(24-05)
250.	State Dr. Brij Kishore Homoeopathic Medical College and Hospital, Deokali, Faizabad-224001.	UTTAR PRADESH	(24-06)
251.	Sh. Sainath Post Graduate Institute of Homoeopathic Medical College and Research Center, 109/04, Gorge	UTTAR PRADESH	(24-07)

	Town, Prayagraj, Uttar Pradesh-211003		
252.	State Ghazipur Homoeopathic Medical College and Hospital, Rauza, Ghazipur- 233001.	UTTAR PRADESH	(24-08)
253.	State Homeopathic Medical College and Hospital, Gorakhpur-273402.	UTTAR PRADESH	(24-09)
254.	State Homoeopathic Medical College and Hospital, Kasimpur Road, Chherat, Aligarh- 202122.	UTTAR PRADESH	(24-10)
255.	State K.G.K. Homoeopathic Medical College and Hospital, Rly. Line Par, Moradabad- 001.	UTTAR PRADESH	(24-11)
256.	State Shri Durgaji Homoeopathic Medical College and Hospital, Chandeshwar, Dist. Azamgarh-276 001.	UTTAR PRADESH	(24-12)
257.	Bengal Homoeopathic Medical College and Hospital, Ismile, P.O. Asansol-713 301, Dist. Burdwan.	WEST BENGAL	(25-01)
258.	Birbhum Vivekanand Homoeopathic Medical College and Hospital, P.O. Sainthia, Distt. Birbhum-731234.	WEST BENGAL	(25-02)
259.	Netai Charan Chakravarty Homoeopathic Medical College and Hospital, 45, 'F' Road, Belgachia, Howrah-711 101.	WEST BENGAL	(25-03)
260.	D.N. De. Homoeopathic Medical College and Hospital, 12, G.K. Road, Kolkata -700 046.	WEST BENGAL	(25-04)
261.	Mahesh Bhattacharya Homoeopathic Medical College and Hospital, H.I.T. Road, Ichapur, Doomurjala Howrah-4.	WEST BENGAL	(25-05)
262.	National Institute of Homoeopathy, Block- GE, Sector III, Salt Lake, Kolkata- 700 106.	WEST BENGAL	(25-06)
263.	The Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospital, 265/66, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata-09.	WEST BENGAL	(25-07)
264.	Burdwan Homoeopathic Medical College and Hospital, Nimbarak Bhavan Raj Ganj P.O. Nutanganj, Distt. Burdwan- 713 102.	WEST BENGAL	(25-08)
265.	Kharagpur Homoeopathic Medical College and Hospital, At Kaushallya, P.O. Kharagpur-721 301. Distt. Midnapore.	WEST BENGAL	(25-09)
266.	Metropolitan Homoeopathic Medical College and Hospital, Ramchandrapur, Sodepur, Kolkata- 700 110.	WEST BENGAL	(25-10)
267.	Midnapore Homoeopathic Medical College and Hospital, P. O. and Dist. Midnapore-721 104.	WEST BENGAL	(25-11)
268.	Pratap Chandra Memorial Homoeopathic Hospital and College, 14/1, Narkeldanga North Road, Kolkata-700 011.	WEST BENGAL	(25-12)

**Annexure - V**  
**(Medical Qualification Codes)**  
(see sub-regulation (1) of regulation 3)

Sl. No.	Qualification	Codes
(1)	(2)	(3)
1.	Undergraduate	A
2.	Postgraduate	B
3.	Any other qualification approved by Homoeopathy Education Board	C

**Annexure -VI**  
(see sub-regulation (2) of regulation 3)

(Recognised medical qualifications in Homoeopathy Granted by Universities, Boards or medical institutions in India as per Schedule II of Homoeopathy Central Council Act, 1973)

S.No.	Name of University, Board or	Recognised	Medical	Abbreviation	Remarks
-------	------------------------------	------------	---------	--------------	---------

	<b>Medical Institution</b>	<b>Qualification</b>	<b>for registration</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**Annexure –VII**

(see regulation 3)

Medical qualification recognition list (MQRL)

(Section 35 of the Act)

(Recognised medical qualification of Homoeopathy granted by University or medical institution in India)

<b>Sr. No.</b>	<b>State (Code)</b>	<b>Name of University (Code)</b>	<b>Name of medical institution (Code)</b>	<b>Medical qualification (Code)</b>	<b>Digital Code</b>	<b>Validity Period</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**Annexure– VIII**

(see regulation 6)

Medical qualification recognition list (MQRL)

(Section 36 of the Act)

(Recognised medical qualification of Homoeopathy granted by University or medical institution outside India)

<b>Sl. No.</b>	<b>Country</b>	<b>Name of University</b>	<b>Name of medical institution (Code)</b>	<b>Qualification (Code)</b>	<b>Validity Period</b>	<b>Digital Code</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

**Annexure– IX**

(see regulation 6)

(Recognised medical qualification in Homoeopathy Granted by Universities, Boards or medical institutions outside India as per Schedule III of the Homoeopathy Central Council Act, 1973)

<b>Sl.No.</b>	<b>Name of University, Board or Medical Institution</b>	<b>Recognised Qualification</b>	<b>Medical</b>	<b>Abbreviation for registration</b>	<b>Remarks</b>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)



**Form - A**

[see sub-regulation (4) of regulation 3 and sub-regulation (2) of regulation 4]

**Application for undergraduate courses in Homoeopathy or any other medical qualification in Homoeopathy in India**

1. Name of Applicant University granting qualification:
2. Name of the Applicant College/ medical institution:
3. Full name of undergraduate course:
4. Abbreviation of undergraduate course:
5. Application for admitted academic session/batch:
6. At the time of application (online/offline) all the documents to be submitted through proper channel
7. Details of permitted Homoeopathic medical colleges affiliated with the Medical Institution / University along with intake capacity for the applied Course: -

Sl. No.	Name of College / medical institution	Postal Address	E-mail	Website	Academic Year applied for
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Permission from Central Government /court order for specific batch (enclose/upload the copy of same)	Admission intake Capacity permitted	Number of students admitted	Remarks, if any
(7)	(8)	(9)	(10)

8. Provide details of admitted students for each Medical Institution as per Proforma provided:

Sl. No.	Name of Student	Date of Admission	Common Merit		Admission quota		Admission through	
			Rank	Marks	All India (Yes/No)	State(Yes/No)	Admission on authority (Yes/No)	Court order and Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of enrollment in University	University enrollment number	Date of internship completion	Remarks ,if any
(10)	(11)	(12)	(13)

9. Provide the details of migrated students college wise/ institution wise:

9 -A – For those who migrated to other college (Provide the copy of supporting documents)

S. No.	Name of the Institution/College	Name of the students	Date of migration	Professional year of migration	University enrollment number	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9 -B- For those who migrated from other college (Provide the copy of supporting documents) :-

S. No.	Name of the Institution/College	Name of the students	Date of migration	Professional year of migration	University enrollment number	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

10. Provide the details of intern students for course: -

Sl.No.	Name of students	Year of Admission	Date of result of final year BHMS/ course completed	Provisional Registration No.	Year of provisional registration (from State Medical Council/ board of Homoeopathy)	Date of Starting of Internship	Date of Completion of Internship	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

SIGNATURE OF REGISTRAR OF THE  
UNIVERSITY WITH SEAL and DATE

**List of enclosure:** The submission or upload of following information supported by necessary documents by medical institution shall be essential to recognise the qualification to be listed and maintained in the medical qualification recognition list by the Homoeopathy Education Board: -

- (i) All the documents to be endorsed with Registrar (Seal) of Concerned University and signature of principal of respective college/ medical institution;
- (ii) Details of number of Homoeopathic Medical Colleges or Institution affiliated to University, at present (and in past) (with their names, addresses and intake capacity);
- (iii) Copy of University Ordinance or Regulation (duly attested by Register of University);
- (iv) Upload or provide details of number of admissions made in undergraduate Course under the University in its affiliated colleges showing the names of candidates, date of admission, NEET score- if applicable, date of examination of the Course year wise in which they have appeared and result of the same.
- (v) Upload or provide details of migration of students from one college to another and vice-versa in enclosed format; and whether permission of *erstwhile* Central Council of Homoeopathy and University was taken in such cases.
- (vi) Provide details of any failure student of the course, if so number there of (college wise) and number of chances availed by them (separately) to clear successfully the said examination.
- (vii) Upload or provide details of dates of starting and completion of compulsory internship training by each student who has passed the course examination in all subjects with name of training hospital where he or she has undergone such training (with their provisional registration given by State Council of Homoeopathy).
- (viii) Copy of approval of such college from Central Government for that specific year.
- (ix) Any other relevant information as and when required.

**Form - B**

[see sub-regulation (4) of regulation 3 and sub-regulation (2) of regulation 4]

**Application for postgraduate Course qualification in Homoeopathy in India**

1. Name of Applicant University granting qualification:
2. Name of the Applicant College/ medical institution:
3. Full name of postgraduate course:
4. Abbreviation of postgraduate course:
5. Application for admitted academic session/batch:
6. Details of permitted Homoeopathic medical colleges/ medical institution affiliated with the medical institution / UNIVERSITY along with intake capacity for the applied Course:

Sl. No.	Name of College / Center/ medical institution	Postal Address	E-mail	Website	Academic Year applied for	Permission from central government /court order for specific batch (enclose the copy of same)	Admission intake Capacity permitted	Number of students admitted for said academic year	Remark, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

7. Number of students admitted as regular candidate (year and subject wise) for M.D. (Hom) course (specialty subject wise)/ any other post-graduate course:

Name of the student with date of admission in the college	Date of registration with University for the Course	Common Merit		Admission quota		Admission through		Qualification (Degree) with name of awarding authority and year of award for admission to M.D. (Hom)
		Rank	Marks	All India (Yes/No)	State (Yes/No)	Admission on authority (Yes/No)	Court order and Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Date of Completion of internship at undergraduate level	Date of registration with State Medical Council of Homoeopathy	Date of Completion of MD(Hom) Part-I Examination/ scheduled examination	Date of Completion of M.D.(Hom)Part-II Examination/ scheduled examination	Date of Declaration of MD (Hom.) part II result	Remarks, if any
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

8. Details of work done by Post Graduate Students: -

A. Dissertation Topics of P.G. Student - Year wise /Department wise:-

Sr. No.	Name of student	Duration of house job Dates from _____ to _____	Name of Topic	Date of submission	Any publication from Dissertation (Yes/No)	If yes, mention details (article title/name of journal/year/month/vol.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

B. Lecture taken by P.G. Students, Batch-

S. No.	Name of student	Class	Date and Day	Time	Topic
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

C. List of presentations given/seminar attended by P.G. students, Batch-

S. No.	Name of Student	List of Presentation	Title of the Seminar attended/Topic
(1)	(2)	(3)	(4)

SIGNATURE OF REGISTRAR OF THE  
UNIVERSITY WITH SEAL and DATE

**List of enclosures:** Provide or Upload following documents.

- Upload or provide details of name of students of post graduate course specialty subject-wise, batch wise with PG entrance examination (whichever applicable) score-if applicable, enrolled by the colleges concerned who have been examined by the University (till date).

- (ii) Provide or upload details of the number of beds earmarked for P.G. students in IPD in Homoeopathic Hospitals of the College concerned be sent with month and year wise bed occupation by patients.
- (iii) Upload or provide a report on work done by PG students during house job or training in the department.
- (iv) Copy of University Ordinance or Regulations (duly attested by Registrar of University) be sent for PG Courses.
- (v) Copy of results declared of PG course in various specialty subjects (college wise, eligible batch wise).
- (vi) Any other relevant information as and when required.

**Form- C**  
(see regulation 5)

**Application for appeal to grant of recognition to a medical qualification in Homoeopathy under section 35 of National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (for degree awarding Universities within India)**

Instructions: -

1. Application is to be submitted by degree awarding institute/University.
2. In case of multiple institutes are affiliated to a single University, separate application for each institution is to be submitted.
3. Application may be submitted either after issue of provisional certificate or award of degree or during internship of the first batch.

1.	Name of the aggrieved University	
2.	Address of the aggrieved University	
3.	E-Mail ID of concerned University Registrar	
4.	Contact person (Name and Designation)	
5.	Mobile No. (Contact person)	
6.	E-Mail ID (Contact person)	
7.	Name of the medical institution	
8.	Nomenclature of Course	
9.	Abbreviation of Course (if any)	
10.	Date of First Application to the Board	
11.	Date of denial of the Application by the concerned Board	
12.	The reason of the denial of application by the concerned Board	
13.	Appeal / Prayer of the University	
14.	The justification of appeal along with documents	
Note: - Please mention NA wherever not applicable		

**Enclosure: -**

1. Cancelled copy/specimen copy of degree in original awarded/to be awarded to the successful candidates.
2. Copy of curriculum and syllabus followed by university for conducting course.

**Declaration or Certification: -**

It is certified that the details above furnished or enclosed are true to the best of my knowledge. I ensure that this university/awarding body is following, in Toto, the rules and the regulations specified by Central Government /National Commission for Homoeopathy/*erstwhile* Central Council for Homoeopathy specified for time to time and implementing the same in the Homoeopathy medical colleges/ Medical institution affiliated to this University/awarding body.

SIGNATURE OF REGISTRAR OF THE  
UNIVERSITY WITH SEAL and DATE

(Name of issuing authority)  
Designation